



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2003/माघ 2, 1924

No. 2]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2003/MAGHA 2, 1924

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

आ.अ. 2(अ).—यतः निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा-संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 56/2002/व्यायिक-III, तारीख 10 जनवरी, 2002 को अवतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, समय-समय पर यथा-संशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (III) में प्रकाशित तारीख 10 जनवरी, 2002 की अपनी उपर्युक्त मुख्य अधिसूचना 56/2002/व्यायिक-III के अधिकरण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता है :-

- (क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए कमशः आरक्षित प्रतीक ;
- (ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए कमशः आरक्षित प्रतीक ;
- (ग) सारणी-III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालय के डाक-पते ; और
- (घ) सारणी-4 में, मुक्त प्रतीक

सारणी-1 राष्ट्रीय दल

क्र०सं०	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1)	बहुजन समाज पार्टी	हाथी (असम और सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों की सूची क्षेत्रों में, इनके अभ्यर्थियों को आयोग में से अन्य प्रतीक चयन करना होगा)	12, गुम्दावा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.
2)	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110002.
3)	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हंसिया	अजय भवन, कोटाला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4)	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए.के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्केट), नई दिल्ली-110001.
5)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
6)	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	10, विशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

सारणी-॥ राज्यीय दल

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1)	आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन० टी० आर० भवन, रोड न० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033. (आन्ध्र प्रदेश)
2)	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल काँग्रेस	परस्पर काटते हुए दो द्वाव	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश)
3)	असम	1. असम गण परिषद्	हाथी	मुख्य कार्यालय:-गोपीनाथ बोरदोलोई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम)

	2. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट)(लिबरेशन)	तीन सितारा वाला झंडा	यू-90, शक्करपुर, दिल्ली-110092
4)	बिहार	1. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान बैरियाटु रोड, रॉची-834008 (झारखण्ड)
		2. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन 13-वी पी हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		3. समता पार्टी	मशाल 220, विट्ठलभाई पटेल हाउस रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		4. जनता दल(यूनाइटेड)	तीर 7, जनरल मंदर रोड, नई दिल्ली-110001
5)	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर विकास 'ए' बिल्डिंग, तीसरा तल, फार्मेली कॉलेज के पास, 18वाँ जून रोड, पणजी-403001 (गोवा)
		2. यूनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	दो पत्तियाँ पहली मंजिल, कासा डोस अलिया डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे एक्सडे फेरिया रोड, माडगांव(गोवा)
6)	हरियाणा	इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा 100, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली।
7)	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल विकास कांग्रेस	टेलीफोन समखेतार बाजार, मंडी-175001 हिमाचल प्रदेश।
8)	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कॉफ़ेंस	हल 1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजिडेंसी रोड, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
			2) नवाई सुब्ब कम्पलेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)
		2. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी	साईकिल 17-वी0 पी0 हाउस रफी मार्ग नई दिल्ली - 110001
		3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	— नौगाम बाई-पास, श्रीनगर-190001. (जम्मू व कश्मीर)
9)	झारखण्ड	1. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान बैरियाटु रोड, रॉची-834008 (झारखण्ड)
		2. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन 13-वी पी हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

	3. समता पार्टी	मशाल	220, विट्ठलभाई पटेल हाउस रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
	4. जनता दल(यूनाइटेड)	तीर	7, जन्नर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001
10) कर्नाटक	1. जनता दल(सेक्यूलर)	सिंह पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
	2. जनता दल(यूनाइटेड)	तीर	7, जन्नर मंतर रोड, नई दिल्ली-110003.
11) केरल	1. केरल कांग्रेस	साइकिल	स्टेट कमेटी आफिस, स्टार थिएटर जंक्शन के पास, कोट्टायम दक्षिण (केरल)
	2. केरल कांग्रेस(एम)	दो पत्तियां	स्टेट कमेटी आफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम (केरल)
	3. मुस्लिम लीग केरल स्टेट कमेटी	सीढ़ी	केरल स्टेट कमेटी, लीग हाउस, रेड क्रॉस रोड, कालीकट-32 (केरल)
	4. जनाधिपत्या संरक्षण समिति	बस	जनाधिपत्य संरक्षण समिति, केरल राज्य समिति कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी-688011, केरल।
12) महाराष्ट्र	शिवसेना	तीर-कमान	शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर, मुंबई-400028(महाराष्ट्र)
13) मणिपुर	1. फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर	उदीयमान सूर्य	सोरम लैरक, नागा मपल, इम्फाल-795001 (मणिपुर)
	2. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	साइकिल	पीपुल्स रोड, इम्फाल-795001 (मणिपुर)
	3. मणिपुर स्टेट कॉंग्रेस पार्टी	फसल काटता हुआ किसान	कैशमपट (राजभवन के सामने) इम्फाल-795001 (मणिपुर)
	4. समता पार्टी	मशाल	220, विट्ठलभाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
14) मेघालय	1. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर	कैप्स देस, लाबन, शिलांग-793004 (मेघालय)
	2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट	दो तलवारें और एक ढाल	मावलाइ नोंगक्वार, शिलांग-793008(मेघालय)

	3. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	इम	मावलई नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय)
15) मिजोरम	1. मिजो नेशनल फंड	सितादा	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकापत आइजॉल (मिजोरम)
	2. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स, देजरी स्कययर, आइजॉल-796001 (मिजोरम)
	3. मिजोरम पीपुल्स कॉफ़ेंस	बिजली का बत्त	जनरल हेडक्वार्टर्स, देजरी स्कययर, आइजॉल-796001 (मिजोरम)
16) उड़ीसा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोझोम गेट, भुवनेश्वर -751009 (उड़ीसा)
17) पांडिचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कडगम	दो पत्तियाँ	275, अम्बाई वणमुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु)
	2. द्रविड मुन्नेत्र कडगम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अटिवालयम', 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
	3. पट्टाली मक्कल काची	आम	63, नदहु मुणु नाइकेन स्ट्रीट, बन्निया तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
	4. तमिल मानीला कांग्रेस (मूपनार)	साइकिल	सत्यमूर्ति भवन, जनरल पैटर्स रोड, चेन्नई-600002 (तमिलनाडु)
	5. पुडुचेरी मक्कल कांग्रेस	घंटी	76, कात्वे सुब्बयारी चेदितयार स्ट्रीट, पांडिचेरी-605001
18) पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	मकान नं० 256, सेक्टर-9सी, चंडीगढ़।
	2. शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान)	गाड़ी	फ्लैट नं० 36, सेक्टर-4, चंडीगढ़।
19) सिक्किम	1. सिक्किम डेमोक्रेटिक फंड	छाता	अपर देवराली, गंगटोक पूर्व सिक्किम।
	2. सिक्किम संग्राम परिषद्	हाथी	संग्राम भवन, जीवन बीग मार्ग, गंगटोक (सिक्किम)

20)	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ	275, अच्चाई घणमुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु)
		2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
		3. मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	लट्टु	'त्यागम,' नं0 141, रुक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इनमोटे, चेन्नई-600008 (तमिलनाडु)
		4. तमिल मानीला कांग्रेस (मूपनार)	साइकिल	सत्यमूर्ति भवन, जनरल पैटर्स रोड, चेन्नई-600002 (तमिलनाडु)
		5. पट्टाली मक्कल काची	आम	63, नट्टु मुथु, नाईकेन स्ट्रीट, वन्निया तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
21)	त्रिपुरा	1. रिबोत्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सरनी) कलकत्ता-700016. (पश्चिम बंगाल)
		2. इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी आफ त्रिपुरा	दो पत्तियाँ	अभय नगर, अगरतला-799005. (त्रिपुरा)
		3. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट कलकत्ता-600026 (पश्चिम बंगाल)
22)	उत्तर प्रदेश	1. समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली
		2. राष्ट्रीय लोक दल	हस्तचालित पम्प	15, विंडसर फ्लेस, नई दिल्ली-110001
23)	उत्तरांचल	समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली
		उत्तराखण्ड कान्ति दल	कुर्सी	सैन्डल ऑफिस, पंचकुटी मलीताल, नैनीताल (उत्तरांचल)
24)	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक	शेर	28, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली-110001.
		2. रिबोत्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कलकत्ता-700016. (पश्चिम बंगाल)
		3. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-600026, पश्चिम बंगाल

सारणी-III

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क.सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1)	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटीके सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)
2)	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)
3)	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
4)	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
5)	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान)
6)	अखंड भारत एकता आन्दोलन	बसंत भवन, 17/34, सिंघन स्ट्रीट, काशीपुर पिन कोड-244713, जिला-उधम सिंह नगर (उत्तरांचल)
7)	अखण्ड भारती	ई0-5, प्रथम तल, बाली नगर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
8)	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001.
9)	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश)
10)	अखिल भारतीय भारत माता-पुत्र पक्ष	ऑफिस-नन्दूरवार पिन-425412, जिला-धुलिया (महाराष्ट्र)
11)	अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन सेना	ओम बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी चौक, गोंघाले नगर हदसर, पुणे-411002 (महाराष्ट्र)
12)	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं0 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
13)	अखिल भारतीय दस्तकार मोर्चा	चैम्बर नं0 187, नई दिल्ली कोर्ट्स, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001.
14)	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ. पटना, (बिहार)
15)	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गोंव-कुराना, पोस्ट-सिम्रावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)

- 16) अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी 4/74, सेक्टर-4, डा0 अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली-110062.
- 17) अखिल भारतीय जनरल लेबर पार्टी ए-3/85, नन्द नगरी, दिल्ली-93.
- 18) अखिल भारतीय गोरखा लीग महावीर बिल्डिंग, लाडेन्का रोड, दार्जिलिंग-734101 (पश्चिम बंगाल)
- 19) अखिल भारतीय जनसंघ जे-394, शंकर रोड, नई दिल्ली-110060.
- 20) अखिल भारतीय जनता कांग्रेस 4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
- 21) अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झॉसी (उत्तर प्रदेश)।
- 22) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक अल्पसंख्यक जन मोर्चा गांव-बार्दे, पोस्ट दाहु, थाना-ओरमानाजी, जिला-रॉंची (झारखण्ड)
- 23) अखिल भारतीय लोकराज पार्टी एच.ओ.-रघुवीर नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद(हरियाणा)
- 24) अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 25) अखिल भारतीय मानव अधिकार दल 1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
- 26) अखिल भारतीय मानव सेवा दल ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- 27) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्युलर) खारी कुआं मुधलपुरा फस्ट, मुरादाबाद-244001(उप्र0)
- 28) अखिल भारतीय राजार्थ सभा आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत, पिन कोड-262001, उत्तर प्रदेश।
- 29) अखिल भारतीय राजीववादी काँग्रेस (दुबे) डब्ल्यू-जेड-8-93, तंवर मार्केट, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली-110028.
- 30) अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास) गौघाट, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
- 31) अखिल भारतीय राष्ट्रीय आजाद हिन्द पार्टी एच. ओ.-1 आर. 11-12, विस्तार योजना दादाबारी, कोटा (राजस्थान)
- 32) अखिल भारतीय रिवोल्यूशनरी शोषित समाज दल वैशाली नगर, सिट्टेश्वर बेस, स्था0 और पो0-लादुर, जिला-लादुर-413512 (महाराष्ट्र)
- 33) अखिल भारतीय संघर्ष दल नंगली भट्टा,फतेहगढ़, चूडीयां रोड, अमृतसर-143001 पंजाब।

- | | | |
|-----|---|---|
| 34) | अखिल भारतीय सेना | ओम कला निकेतन संकल्प, को.आ. हाउसिंग सोसायटी,
आनन्दगार, विखोरेली पार्क साइट (पश्चिम),
मुम्बई-400079 (महाराष्ट्र) |
| 35) | अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी | अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब) |
| 36) | अखिल भारतीय बेरोजगार पार्टी | 7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) |
| 37) | अखिल भारतीय जनता विकास पार्टी | 21-डी, पाकेट ए-3, एवरेस्ट अपार्टमेन्ट कालकाजी एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-19. |
| 38) | अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस | एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) |
| 39) | अली सेना | 1/1, जफराबाद, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053. |
| 40) | ऑल इंडिया किश्चियन डेमोक्रेटिक
एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी | ब्लॉक ए-1, फ्लैट-2, कलकत्ता-700054, (पश्चिम बंगाल) |
| 41) | ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट) | 49-एम, मोतीलाल फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010. (तमिलनाडु) |
| 42) | ऑल इंडिया गरीब कांग्रेस | ए-1/126, सेक्टर-6, रोहिणी, नई दिल्ली। |
| 43) | ऑल इंडिया होमलेस पीपुल्स कांग्रेस | नवग्राम गरीया, पो0ऑ0 पंचपोटा, साउथ-24,
पटगना-743518. (पश्चिम बंगाल) |
| 44) | ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (सेक्युलर) | 2680, चूड़ीवाला, दिल्ली-110006. |
| 45) | ऑल इंडिया लोकराज पार्टी | गांव-मेहरबान, तहसील और जिला-लुधियाना (पंजाब) |
| 46) | ऑल इंडिया महिला राज पार्टी | 5 ए, ओरियेंट रो, कलकत्ता-700017, (पश्चिम बंगाल) |
| 47) | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल
मुस्लिमीन | दास्तुल्लाम बोर्ड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) |
| 48) | ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट | 148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001. |
| 49) | ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कड़गम | लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107. (तमिलनाडु) |
| 50) | ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम | सी-177, सेक्टर 'जे' अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। |
| 51) | ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी | सेन्ट्रल कमेटी, गौधी नगर, -प्रथम लाइन,
बेराहामपुर-760001, (उड़ीसा) |
| 52) | ऑल इंडिया राजीव कान्तिकारी कांग्रेस | बी-68, जगत पुरी, दिल्ली-110051. |
| 53) | ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन
सिंह मजहबी दल | गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर,
(पंजाब) |

- 54) ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी गॉव-सिमुलपुर, पो0-ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन)
(पश्चिम बंगाल)
- 55) ऑल इंडिया द्रुबस एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट विंडरुश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश)
- 56) ऑल जे एण्ड के. पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट जवाहर नगर, हाऊस नं0-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ,
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)
- 57) ऑल झारखण्ड स्टुडेंट्स युनियन साकेत बिहार, हाटमू, राँची, राँची-834002 (झारखण्ड)।
- 58) ऑल केरल एम.जी.आर. द्रविड़ मुन्नेत्र पार्टी दास बिल्डिंग नेमोम पी.ओ., तिरुवनंतपुरम-695020. (केरल)
- 59) ऑल पार्टी हिल लीडर्स काफेंस पी.ओ.-तुरा चंदमारी, वेस्टगारो हिल्स-794002.
(आर्मिस्न आरक ग्रुप) (मेघालय)
- 60) अम्बेडकर कांति दल शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक,
वदायुं उत्तर प्रदेश.
- 61) अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस 8-3-323 अमृतपेट, कास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
- 62) अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट 39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
- 63) अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल डा0 लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001.
(उत्तर प्रदेश)
- 64) अम्बेडकर समाज पार्टी 304, मन्दाकिनी एक्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019.
- 65) अम्बेडकरवादी पार्टी 136/1, डायमंडहारबर रोड, कलकत्ता-700063.
(पश्चिम बंगाल)
- 66) अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 20, ढांडीवाल ले-आउट, रिंग रोड, जोगी नगर,
नागपुर-440027, महाराष्ट्र
- 67) आमरा बांगाली नं0 2, बल्लव स्ट्रीट, कलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल)
- 68) अनैतिनिय एम.जी.आर. काची 68, हबीबुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
- 69) अनैतिनिय तामिझागा मुन्नेत्र कड़गम 10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयाट,
यूनिवर्सिटी (पोस्ट) कोयम्बटूर-641048 (तमिलनाडु)
- 70) अण्डमान निकोवार विकास कांग्रेस एम बी-23, एम.जी.रोड, मिडिल पाइंट, पोर्ट ब्लेयर-741001
(अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह)
- 71) आन्ध्र नाडु पार्टी 10-5-14/1, मासब टैंक, हैदराबाद-500028 (आन्ध्र प्रदेश)
- 72) आन्ध्र प्रदेश नवोदय प्रजा पार्टी नं0 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट,
रंगा रेड्डी, जिला-आन्ध्र प्रदेश

- 73) अन्ना तेलुगु देशम पार्टी 4-1-825/8, 9 व 10, एन.टी. आर एस्टेट्स आबिड्स, हैदराबाद-500001, (आन्ध्र प्रदेश)
- 74) अन्नदाता पार्टी मंदिर श्री पुरुषोत्तम भगवान, चंद्रभागा-326023, झालारपाटन सिटी, जिला-झालाबाड़, (राजस्थान)
- 75) अपना दल 1/2 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 76) अपना हिन्दू राम भक्त पार्टी ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश-272192)।
- 77) आर्य सभा 7, जनर-मनर रोड, नई दिल्ली-110001.
- 78) ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी रोंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम)
- 79) अवामी पार्टी ई-11/77, ब्यू कॉलोनी, हौज खास एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
- 80) बहुजन एकता पार्टी (आर) 2151/17ए/12, ब्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008.
- 81) बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी जी-161, जे.जे. कॉलोनी, वाजीरपुर, दिल्ली-110052.
- 82) बहुजन रिपब्लिकन पार्टी म.न. 1-7-1046/18, एस.आर.टी. क्वार्टर्स-18, आजमाबाद, रामनगर, हैदराबाद-500020.(आन्ध्र प्रदेश)
- 83) बहुजन समाज पार्टी(अम्बेडकर) गांव और पो0 ऑफिस-सेगती, जिला-अम्बाला (हरियाणा)
- 84) बहुजन विकास पार्टी बी0-3/512 जे0 जे0 सी0 रघुबीर नगर नई दिल्ली-110027
- 85) बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो0ऑ0-थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम
- 86) भारत दल भारत सेवाधाम अरण्यक, कान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
- 87) भारत जन पार्टी 324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 88) भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी 3/250, विश्वास खण्ड, गोयती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
- 89) भारत कान्ति रक्षक पार्टी पुरानी बाजार, पोस्ट-भरवारी, जिला-कौशांबी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 90) भारत मंगलम परिषद् जमो बाजार, हास्पिटल चौक, पो0आ0 जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार
- 91) भारत नव ज्योति संघ 18/25-ए, कुरुसावा, फूलबाग, कानपुर-208001. (उत्तर प्रदेश)

92)	भारत पैशनर्स फ्रंट	आर-17, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016.
93)	भारत मक्कल कांग्रेस	एन-30, बेलुचेट्टी रोड म्दीट, एस कादीयुर, जोलारपेट, नार्थ अर्कोट जिला (तमिलनाडु)
94)	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा फास, गायत्री नगर, बंगलौर-560021. (कर्नाटक)
95)	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब)
96)	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दर पुरी, ओपाल-462022 (मध्य प्रदेश)
97)	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फेजर रोड, पटना-800001 (बिहार)
98)	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो.ऑ.-वेघाट, पट्टी-मत्ला, चौकौट, जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)
99)	भारतीय डेमोक्रेटिक दल	नं० 1ए, गंगाई उम्मन कोइल, दूसरी म्दीट, वादापलानी, चेन्नई-600026 (तमिलनाडु)
100)	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो०-बेल्हार कलां, तहसील मेहडावल, जिला-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
101)	भारतीय हिन्दू सेना	आमेर भवन, आमेर, जयपुर (राजस्थान)
102)	भारतीय जय जवान जय किसान पार्टी	दूक यूनिथन के पास, झज्जर, जिला-रोहतक (हरियाणा)
103)	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर०टी०ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।
104)	भारतीय जन कांग्रेस	5158/15 महालक्ष्मी बिल्डिंग, रामकृष्ण मिशन के पीछे, पहाड़गंज लेन, नई दिल्ली-110055.
105)	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील-छाता, जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश)
106)	भारतीय जन किसान पार्टी	35/सी/2, जयन्तीपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211011 (उत्तर प्रदेश)
107)	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश)
108)	भारतीय जन विकास पार्टी	पूर्व अशोक नगर, पो.-गुलाब हाउस, रोड नं. 14ए, कंकडबाग, पटना-20, (बिहार)
109)	भारतीय जनतांत्रिक परिषद्	8/1, दतिया गेट के बाहर, झॉसी-284001. (उत्तर प्रदेश)

110)	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
111)	भारतीय किसान कामगार पार्टी	214-शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049.
112)	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद-283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
113)	भारतीय क्रान्तिकारी कमान्ड पार्टी	214एल.आई.सी. कॉलोनी, टैगोर टाउन, इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश)
114)	भारतीय लेबर पार्टी	बी.पी.-281, रवि नगर, मुगलसराय, वाराणसी-232101 (उत्तर प्रदेश)
115)	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
116)	भारतीय लोक एकता कांग्रेस पार्टी	61, मंगला पुरी फेस-1, पालम, नई दिल्ली-45
117)	भारतीय मानव रक्षा दल	बारखेडा, पठानी, भोपाल-21, (मध्य प्रदेश)
118)	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एक्वलेष, फेस-II, नई दिल्ली-110016.
119)	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्कडिया बिल्डिंग, सर जे.जे.रोड, जे.जे.हॉस्पिटल के सामने, मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)
120)	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना-800001 (बिहार)
121)	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिन्डा-151001.(पंजाब)
122)	भारतीय मुस्लिम पार्टी (सिद्दिकी)	गांव-सूरजपुर, पो.ऑ.-गरादेवरिया, जिला-खीरी-262071 (उत्तर प्रदेश)
123)	भारतीय नागरीक पार्टी	गांव-कनासी, पो.ओ.-कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)
124)	भारतीय नवशक्ति पार्टी	5, गरुदवाड़ा टकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001
125)	भारतीय परिवर्तन मोर्चा	3/8, शाह नगर, मंगलापुरी टर्मिनल, पालम, नई दिल्ली।
126)	भारतीय पीपुल्स एण्ड नेशनल रेक्युरिटी नेशनल पार्टी	मार्फत होटल नन्दा, 5वाँ फ़ास गांधीनगर, बंगलोर-560009 कर्नाटक
127)	भारतीय प्रजा पक्ष	नं.374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-फॉस, रविन्द नाथ टैगोर नगर (आर.टी. नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक)
128)	भारतीय प्रजातंत्र पार्टी	पटेल नगर, रोड नं0-9, पटना-23 (बिहार)

- 129) भारतीय राजीव कांग्रेस 145, ए-1, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
- 130) भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017. (उत्तर प्रदेश)
- 131) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल नया सरोफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश)
- 132) भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा नवदीय फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 133) भारतीय राष्ट्रीय परिषद् ई-164, समस्तपुर रोड, पांडव नगर, दिल्ली-110092.
- 134) भारतीय राष्ट्रीय प्रजा मंच मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश)
- 135) भारतीय रिपब्लिकन पक्ष डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर, मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)
- 136) भारतीय समाज दल 85, चौक माकाबु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
- 137) भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत रवेन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
- 138) भारतीय समाज संगठन मोर्चा मानक माऊ, गंगोह रोड, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
- 139) भारतीय समाजवादी विकास पार्टी एफ-717 मंगोलपुरी, दिल्ली-110083.
- 140) भारतीय समता पार्टी ए-71-निर्माण विहार, नई दिल्ली।
- 141) भारतीय सर्वकल्याण कानि दल 2/643/सी, रामबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)
- 142) भारतीय सेवा दल 3-1-236/239/1, पहली मंजिल, सोमासुन्दरम स्ट्रीट, सिकन्दराबाद-500003 (आन्ध्र प्रदेश)
- 143) भारतीय श्रमिक दल एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)
- 144) भारतीय सुराज्य मंच 831, सैक्टर-10, पंचकुला-134113, हरियाणा।
- 145) भारतीय युवा शक्ति बी-32-बी, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली-110009.
- 146) भारिपा बहुजन महासंघ डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)
- 147) भारतीय समाजवादी मोर्चा 3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)
- 148) भारती कृषक सेवा समाज गांव-खारखारी आश्रम, पोस्ट-खरखोदा, जिला-भैरठ (उत्तर प्रदेश)

149)	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)
150)	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
151)	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101.(पश्चिम बंगाल)
152)	भारतीय हरित कान्ति दल	गांव व पो0-सोन्टा, वायां -अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
153)	भारतीय जन कल्याण पार्टी	199/2, अर्जुन नगर कैथल-136027 (हरियाणा)
154)	भारतीय जन कांग्रेस(राष्ट्रीय)	113/70बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023(बिहार)
155)	भारतीय किसान मजदूर पार्टी	गांव और पोस्ट-मीरपुर, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
156)	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-209601.
157)	भारतीय नौजवान दल	सेक्टर-6, पॉकेट बी-2, म.न. 23, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.
158)	भारतीय रक्षक पार्टी	म.नं. 397, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक-124001 (हरियाणा)
159)	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, रामपुर नगर, न्यू फेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली।
160)	भूमि जोतक समूह	560/12, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226005 (उत्तर प्रदेश)
161)	भ्रष्टाचार विरोधी दल	7/216, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
162)	बिहार पीपुल्स पार्टी	303, सी ब्लॉक, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001 (बिहार)
163)	बिहार विकास पार्टी	कमरा नं0 6, 1-स्पेशल फैमिली हाउस, आर-ब्लाक, पटना-800001 (बिहार)
164)	बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत-श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ.-मधुपटना, कटक-10 (उड़ीसा)
165)	बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया	मार्फत-भाई बनसोद जुनी ओली, राम मंदिर कांम्पटी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)
166)	बृज प्रदेश निर्माण संघ	श्री अरविन्दु भवन, 28/352, गुदडी मन्सूर खान, आगरा-3 (उत्तर प्रदेश)

- 167) बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी-28400 (उत्तर प्रदेश)
- 168) बुंदेलखंड विकास दल गांव और पो.ऑ. कुलपाहद, जनपद-हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)
- 169) चम्पारण विकास पार्टी ब्लॉक-ए, फ्लैट नं. 102, दारोगा राय पथ, पटना (बिहार)
- 170) चंडीगढ़ विकास पार्टी मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़-160009
- 171) छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी पी० आर० नेगी का मकान, झुलेलाल धाम के पीछे, गली डा० भानु प्रताप सिंह, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़
- 172) छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पो.ऑ. दल्ली राजहारा, जिला-दुर्ग-491228. (छत्तीसगढ़)
- 173) छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर-492001.(छत्तीसगढ़)
- 174) किश्तवा मक्कल काची 173-पोन्नागर, तिरुचिरापल्ली-620001.(तमिलनाडु)
- 175) किश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट नं.9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई (तमिलनाडु)
- 176) किश्चियन मुन्नेत्र कडगम 93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई-600001.(तमिलनाडु)
- 177) कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमिटी कुन्नुकुडी, त्रिवेन्द्रम-695037. (केरल)
- 178) कांग्रेस (सेक्युलर) राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन-16 (केरल)
- 179) कांग्रेस जनायक पिरावाई 24, ओरमेस रोड, किलपंक, चेन्नई-600010
- 180) कांग्रेस ऑफ पीपुल 5, पेद्रोपोलिस कोलाबा, मुम्बई-400005 (महाराष्ट्र)
- 181) कोंगुनाडु मक्कल काची टी.टी. एस. काम्पलैक्स, मेट्टुर रोड, इरोडे जिला-638011. (तमिलनाडु)
- 182) दलित मजदूर किसान पार्टी इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
- 183) दलित मुस्लिम विकास पार्टी 2/306, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली-110062.
- 184) दलित समाज पार्टी नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो.ऑ.-अनीशाबाद, पटना-800002 (बिहार)
- 185) दिल्ली विकास पार्टी बी-600, जहांगीर पुरी, दिल्ली-33.
- 186) डेमोक्रेटिक बहुजन समाज मोर्चा ग्राम-सोत्रान, पो.-चक कालाई तहसील व जिला-नवांशहर, (पंजाब)
- 187) डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी 985-बी, अर्जन नगर, लाडोवाली रोड, जालन्धर सिटी-144001, पंजाब

188)	डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड़, अमृतसर (पंजाब)।
189)	डेमोक्रेटिक फार्वर्ड ब्लॉक	66, तमिल संगम रोड़, मदुरई-625001.(तमिलनाडु)
190)	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी.टी.बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)
191)	डेमोक्रेटिक जनता दल(जे. एण्ड के.)	344ई.पी. क्रिस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक) जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
192)	डेमोक्रेटिक झारखंड मुक्ति मोर्चा	पम्प रोड़, टोंका टोली, पो.ऑ. चकवरपुर-833102. सिंहभूम पश्चिम (झारखण्ड)
193)	डेमोक्रेटिक मूवमेंट	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर)
194)	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर-17 (महाराष्ट्र)
195)	डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी	अखाम लिंकई, क्वाकैथल एयरपोर्ट रोड़, इम्फाल-795001, मणिपुर
196)	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63-अनन्दा पलित रोड़, कोलकाता-700014 पश्चिम बंगाल।
197)	देश बचाओ जन मोर्चा	डी-6/171, सेक्टर-31, नोएडा-201301. (उत्तर प्रदेश)
198)	देश भक्त पार्टी	बी-114, प्रीत विहार, दिल्ली-92.
199)	देसिया पातुकाप्पु कड़गम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई-600093 (तमिलनाडु)
200)	धीराविदा तेलुगार मुन्नेत्र कलागम	4/802, कुरुजी स्ट्रीट, तहसीलदार नगर, मदुरई-625020.
201)	दिव्या शक्ति पार्टी	7/106, ग्राउंड फ्लोर, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031.
202)	द्रविड़ मक्कल कांग्रेस	नं० 11, जवाहरलाल नेहरू रोड़, एवेन्यु, अशोक नगर, चेन्नई-600083.(तमिलनाडु)
203)	द्रविड़ पेरावार्ई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पाडिचेरी-605001.
204)	द्रविड़ विड़िपुनारची कड़गम	17-ए, गंगप्पा स्ट्रीट, (ए.वी.एम. स्टुडियो के सामने) बडपलानी, चेन्नई-600026. (तमिलनाडु)
205)	एकता कानि दल यू.पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)
206)	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता फिदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली-110006.

- 207) इफेम यूनियन त्वांगडिगगिलआना बिडिंग, बाबंगकावन साउथ,
आइजॉल-796012. (मिजोरम)
- 208) फार्मर्स डेवेलपमेंट्स पार्टी 149, माम्बालम, हाई रोड, टी नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु
- 209) फेडरेशन ऑफ सभास 101, सावित्री काम्लेक्स, चौधरी सिनेमा के सामने,
गाजियाबाद-201001. (उत्तर प्रदेश)
- 210) फावर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट) टेम्पल स्ट्रीट, पो.ऑ. व जिला-जलपाईगुड़ी-735101.
(पश्चिम बंगाल)
- 211) गांधीवादी राष्ट्रीय कांग्रेस टीचर्स कॉलोनी, तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट-महोरिया
टाउन और जिला-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)
- 212) गरीबजन समाज पार्टी 450, जयदेवी नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 213) गरीब जनता पार्टी राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो.ऑ.-विजय नगर, बटाला रोड,
अमृतसर (पंजाब)
- 214) गारो नेशनल काउन्सिल न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)
- 215) गोवा पीपुल्स कांग्रेस मेनेजेस बिडिंग के सामने, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा-403001.
- 216) गोवा पोकस मैनेजेस बिडिंग के सामने, अलटिनहो,
पणजी, गोवा-403001
- 217) गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी प्रथम तल, डायस बिडिंग, रूआ ओरमुज रोड,
फैरी वार्फ के सामने, पणजी, गोवा-403001
- 218) गोवा सु-राज पार्टी 383-ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन-403514.
- 219) गोवा विकास पार्टी लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने,
जरनलिरिट कॉलोनी के पास, पूरवोरिम, गोवा-403507
- 220) गोल्डन इण्डिया पार्टी 'नन्दन वन', बी 94-ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004
(राजस्थान)
- 221) गोमान लोक पोकस 31 जनवरी रोड, पो. बॉक्स-242, पजिम (गोवा)
- 222) गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ग्राम व पो.ऑ. तिवेथ, तहसील कुटघोरा, जिला-बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)
- 223) गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट डॉ0 जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो.ऑ. और जिला
दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)
- 224) ग्राम मुन्नेत्र कड़गम 'जैड' मंगाम्मल सलाई, रेगानगर, तिरुचिरापल्ली-620021.

- 225) ग्रामीण दल
आर्यवत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज,
जनपद-लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
- 226) गुजरात आदिजाति विकास पक्ष
ब्लॉक नं. 6/4, एम.एल.ए. निवास, सेक्टर-21,
गान्धी नगर (गुजरात)
- 227) गुजरात स्टेट जनता कांग्रेस
इन्दुभाई पटेल भवन, वंसत चौक, भाद्रा, अहमदाबाद-380001
(गुजरात)
- 228) गुजरात युवा विकास पार्टी
मार्फत दरबार कृषा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास,
बाइनगर-384355 मेहसाना (गुजरात)
- 229) हरियाणा जनरक्षक दल
249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, मोहाना, जिला सोनीपत,
हरियाणा ।
- 230) हरियाणा लोक दल
705, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा)
- 231) हरियाणा विकास पार्टी
कोठी नम्बर 136/22, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा)
- 232) हिमाचल कान्ति पार्टी
ग्राम-खार्त, पो.ऑ.नंदरूल, तहसील और जिला-कांगड़ा-176001
- 233) हिन्द किसान मजदूर पार्टी
31/419, कैला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर,
आगरा-4 (उत्तर प्रदेश)
- 234) हिन्द मोर्चा
समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, (दिल्ली)
- 235) हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी
एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017.
- 236) हिन्द विकास पार्टी
पो.ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास,
जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 237) हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी
हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग,
पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1,
सांगली-416416, जिला सांगली,
महाराष्ट्र ।
- 238) हिन्दु समाज पार्टी
117/के-36, सर्वोदय नगर कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- 239) हिन्दुस्तान जनता पार्टी
मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन सखी मण्डी, खोकडपुरा,
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
- 240) हिन्दुस्तान पार्टी
202, देविका अपार्टमेन्ट्स, बाबा जन पूना-411001(महाराष्ट्र)
- 241) हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना(भारत)
ग्राम और पो.ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह,
जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश)

242)	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली-110092.
243)	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, ट्रिस्ट लोज के पास, बार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम)
244)	इक्किया मक्कल मुन्नेत्र कडगम	मक्कलगांम नं० 11, पर्ल एम्पायर अपार्टमेंट, कुप्पम बीच रोड, तिरुवनमियुर, चेन्नई (तमिलनाडु)
245)	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट-नगीना, जिला-बिजनौर-246762 (उत्तर प्रदेश)
246)	इंडियन किश्चियन फ्रंट	प्लॉट नं० 660, ईस्ट लास्ट रोड, अन्ना नगर, मदुरई-625020
247)	इंडियन किश्चियन सेक्युलर पार्टी	सगाया माथा मालीगई नं० 105/167, तिरुवेलुयार नगर, अयानावारम, चेन्नई-600023 तमिलनाडु।
248)	इण्डियन एकता पार्टी	ए-180, सेक्टर-40, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
249)	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
250)	इंडियन लिबरेशन फ्रंट	टी-16, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016.
251)	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्लेक्स, सेंदुला जैब, नई दिल्ली-30.
252)	इंडियन नेशनल लेबर पार्टी	रजनी मुखर्जी स्मृति, भाबर, कोल डॉक रोड, (पहले कोल कन्ट्रोलर्स ऑफिस) कलकत्ता-700043. (पश्चिम बंगाल)
253)	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, फस्तूरबा गाँधी मार्ग फास, नई दिल्ली-110001
254)	इंडियन पीस पार्टी	एक्स-919, चॉंद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली-110031.
255)	इंडियन पीपुल्स कांग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001.
256)	इंडियन रिपब्लिकन फ्रंट	36/19/3, पी० डी० किडगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
257)	इंडियन सेक्युलर कांग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए.फ्लैट्स) सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025.
258)	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	18, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.
259)	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो०-सिटी नगर, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
260)	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम	नं० 33, हात्स रोड, पी.ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एम्मेरे, चेन्नई-600058, (तमिलनाडु)

261)	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710इ (इ/54), राज नगर-II. (देव हास्पिटल के पास) पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
262)	जय हिन्द पार्टी	वार्ड नं० 6, सुपौल, पो० व जिला-सुपौल, बिहार-852131
263)	जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046
264)	जय प्रकाश जनता दल	16, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
265)	जय तेलंगाना पार्टी	मं० नं० 34/9, एस.बी.एच. कॉलोनी, श्रीनगर, हैदराबाद-500073 (आन्ध्र प्रदेश)
266)	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल कांग्रेस	सेन्ट्रल ऑफिस, रेड कास रोड, मैसुमा, श्री नगर-190001 (जम्मू व कश्मीर)
267)	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कांग्रेस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर-190001 (जम्मू व कश्मीर)
268)	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	केन्द्रीय कार्यालय नं. 1, दुर्गानाग रोड, बर्ने हाल स्कूल के निम्न, सेनावार, श्रीनगर-190001.(जम्मू व कश्मीर)
269)	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)
270)	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं.475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054
271)	जन कान्ति मोर्चा	89-एम, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
272)	जन समानता पार्टी	बी-125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली-110019.
273)	जन सेवा पार्टी	जे.-7, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092.
274)	जन प्रिय	ए/2, कारस्टेल-5, कार्नवेल रोड, बंगलौर-560025.(कर्नाटक)
275)	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, सेक्सपेयर सरणी, 5वाँ तल, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल
276)	जननिष्ठा	मोहन विला, ए-1/347, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.
277)	जनता कॉंग्रेस पार्टी ऑफ भारतवर्ष	ए-15/2, बसन्त विहार, पी.बी. नं० 8801. नई दिल्ली-57.
278)	जनता पार्टी	ए-77 निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली।
279)	जनता विकास पार्टी	अबधेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा (मध्य प्रदेश)

- 280) जनहित मोर्चा कोठी नं० 75, सेक्टर-17, पंचकुला-134109.(हरियाणा)
- 281) जनसत्ता पार्टी 6-ए, प्रेम विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश)
- 282) जनसेवक समाज पार्टी 159, बुद्धाश्रम, तापा रोड, मोहल्ला-खेरा, फिरोजाबाद-283203 (उत्तर प्रदेश)
- 283) जवान किसान मोर्चा निर्मल प्लेस, न्यू कॉलोनी, पकरी, आरा, बिहार-802301
- 284) जेबामणि जनता नं० 33, सैकड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004. तमिलनाडु।
- 285) झारखंड दिशोम पार्टी 12, मार्ग सं० 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर-831005, झारखण्ड।
- 286) झारखण्ड की कानूनीकारी पार्टी गाँव और पोस्ट-नवगढ़, जिला-राँची-835103.
- 287) झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट हिनू, राँची जिला, राँची-834002.(झारखण्ड)
- 288) झारखण्ड पार्टी मेन रोड, राँची (झारखण्ड)
- 289) झारखण्ड पार्टी (नरेन) स्थान-रघुनाथपुर, पो.ऑ.-झाड़ग्राम, जिला-मिदनापुर-721507 (पश्चिम बंगाल)
- 290) झारखण्ड पीपुल्स पार्टी पो.ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु०स्टे०-गोविन्दपुर, जिला-सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड।
- 291) झारखण्ड वनांचल काँग्रेस 5, रातू रोड, राँची-834005, झारखण्ड।
- 292) झारखण्ड विकास दल 10, ए.पी.एन. बोस कम्पाउण्ड, राँची-834001 (झारखण्ड)
- 293) कैविनयगेर मुन्नेत्र कड़गम श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई-600010 (तमिलनाडु)
- 294) कामराजार अदितनार कड़गम 6-ई, सरथान कोइल स्ट्रीट, पुणकुदिङरुप्पु नागेरकोइल-629001 (तमिलनाडु)
- 295) कामराजार देसीया काँग्रेस 7-वेलायुथा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई-600028 (तमिलनाडु)
- 296) कमजोर वर्ग संघ; बिहार सेंट्रल ऑफिस-पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (ऊपर फ्लोर) पटना-800023 (बिहार)
- 297) कांची अरिगेर अन्ना द्रविड़ मक्कल कड़गम नं० 10ए, नाथम मेदु स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, (तमिलनाडु)

- 298) कन्नड़ पक्ष नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने) बंगलौर-560053 (कर्नाटक)
- 299) कन्नड़ चालवाली बाटल पक्ष 154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर-560053. (कर्नाटक)
- 300) कर्नाटक कान्ति दल नं० 240, सिकसटीन्थ मेन, सिकसथ कास, फर्स्ट फेज, ॥ स्टेज, वी.टी.एम.(ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर-560076 (कर्नाटक)
- 301) कर्नाटक राज्य द्योता संघ 636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरीनगर बंगलौर-560098 (कर्नाटक)
- 302) कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम नं. 6, ॥ फ्लोर, चिक बाजार रोड, कन्नस शिवाजी नगर, बंगलौर-560051 (कर्नाटक)
- 303) केरल कॉंग्रेस (जेकब) वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी.बी. रोड, कोट्टायम (केरल)
- 304) केरल कॉंग्रेस (बी) पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर तिरुवनपुरम-695001. (केरल)
- 305) खासी फार्मर्स डेमोक्रेटिक पार्टी मालकी चीनूपट्टी, शिलांग-793001, मेघालय ।
- 306) खून हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट द्वारा खासी स्टूडेन्ट यूनियन का कार्यालय जैव चापेल रोड, शिलांग-793002, मेघालय ।
- 307) किसान कान्ति दल नांगला सुखदेव, नीमखेरा-जलेसेर, जिला-एटा, (उत्तर प्रदेश)
- 308) किसान मजदूर बहुजन पार्टी जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 309) किसान नौजवान पार्टी राजेन्द्र नगर, करमेर रोड, ओरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश
- 310) किसान विकास पार्टी अब्दुल पुंरा , जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 311) किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 312) कोंगू नाडु मुनेत्र कड़गम 320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुरा-641601 कोयम्बटूर (जिला) तमिलनाडु ।
- 313) कोसल पार्टी जी.एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर-768004.(उड़ीसा)
- 314) कान्ति दल 132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 315) कान्ति परिषद् मं० नं० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)
- 316) कान्तिकारी बेरोजगार पार्टी मं० नं० 86, विनोबा वार्ड, वार्ड नं० 6, जैन मन्दिर के पीछे, गवर्मेन्ट गर्ल्स स्कूल रोड, सिहोर, जिला-जबलपुर, 483225 (मध्य प्रदेश)

- 317) कान्तिकारी मनुवादी मोर्चा एफ-62, सैक्टर-II, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
- 318) कान्तिकारी समाजवादी पार्टी लोहिया 18/22, ताशकन्द मार्ग, मूलचन्द यादव चौराहा सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 319) कान्तिकारी समाजवादी पार्टी न्यू फैमिली टाइट क्वार्टर नं0-1, रोड नं0-2, आर ब्लॉक, पटना (बिहार)
- 320) कुड़ी मक्कल काची संख्या 7 कामराजार स्ट्रीट, पल्लीक्कारानै, चेन्नई-601302 (तमिलनाडु)
- 321) कूकी नेशनल असेम्बली रोस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो.ऑ.-इम्फाल, पिन-795001. (मणिपुर)
- 322) लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया 66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर.चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)
- 323) लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया (बी.बी. प्रसाद) 4, रामचन्द्र लेन, राम किशोर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
- 324) लेबर विकास पार्टी 1407, न्यू प्रीत नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना (पंजाब)
- 325) लैराम पीपुल पार्टी मुख्यालय-लावंगल्लाई, पो.ऑ. लावंगल्लाई-796891 (मिजोरम)
- 326) लद्दिन कांग्रेस बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621.(उत्तर प्रदेश)
- 327) लाइफ पीसफुल पार्टी सर्वधर्म भवन, हिन्दु-मुस्लिम विश्वशान्ति आश्रम एवं कौमूसोहार्द, विश्वशान्ति, सर्वधर्म आश्रम ट्रस्ट, राजनगर, पूना-बंगलौर रोड, तुमकुर-572106.(कर्नाटक)
- 328) लोक भलाई पार्टी 5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)
- 329) लोक दल सी-616, बुधनगर, इन्दपुरी, नई दिल्ली-110012.
- 330) लोक हित पार्टी बस्ती अब्दुलापुरा, लुधियाना-3, (पंजाब)
- 331) लोक जन शक्ति पार्टी 12-डी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.
- 332) लोक सेवा दल पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302
- 333) लोक शक्ति 83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
- 334) लोक विकास पार्टी 41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
- 335) लोकप्रिय समाज पार्टी प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019
- 336) लोकतांत्रिक जन समता पार्टी सी. 7/166, यमुना विहार, दिल्ली-110053.

- 337) लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश 212, जवाहर सदन, शिमला-171004 हिमाचल प्रदेश।
- 338) लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110022.
- 339) लोकतांत्रिक जनता फंड डी-351/12, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092.
- 340) एम.जी.आर. कड़गम 32, न्यू टैंक स्ट्रीट, नुंगमबक्कन, चेन्नई-600034.(तमिलनाडु)
- 341) एम.जी.आर. मुन्नेत्र कड़गम कोन्नेर हाई रोड (केनाल एरिया) ओट्टेरी, चेन्नई-600012 (तमिलनाडु)
- 342) मध्य प्रदेश किसान मजदूर आदिवासी कानि दल विधायक विश्राम गृह, कमरा नं० 95, भाग-III, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश।
- 343) मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक पार्टी 19, दुर्गा कॉलोनी, संजीवनी नगर, गुड्डा, जबलपुर-482003 (मध्य प्रदेश)
- 344) महाभारत महाजन सभा प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099.(तमिलनाडु)
- 345) महाकौशल विकास पार्टी 'शान्ति कुटीर' 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
- 346) महाराष्ट्र लोकशक्ति पक्ष 6-ए, भूमि तल, सर्वोदय ट्रस्ट बिल्डिंग, गोखले रोड दक्षिण, दादर पश्चिम, मुम्बई-400028, महाराष्ट्र।
- 347) महाराष्ट्र प्रदेश कानिकारी पार्टी स्थान/पोस्ट-तालुक कोरेगांव, कोरेगांव, जिला-सतारा (महाराष्ट्र)
- 348) महाराष्ट्र राजीव कांग्रेस डा० बाबासाहेब अम्बेडकर नगर, बस स्टाप नं० 379 के पास, पी.एल. लोखंडे मार्ग, चेम्बुर, मुम्बई-400089 (महाराष्ट्र)
- 349) महाराष्ट्र सेक्युलर फंड हिल विवे, 109, ए/2, वैशाली नगर, (एस पी पी रोड, धारखाडी), दहीसर(पूर्व) मुम्बई-68 (महाराष्ट्र)।
- 350) महाराष्ट्र विकास कांग्रेस स्थान व पोस्ट-जलगांव, जिला-जलगांव-425001 (महाराष्ट्र)
- 351) महाशक्ति इंकलाब पार्टी टिगरी, खुशालपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
- 352) महिला अधिकार पार्टी 29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
- 353) मजलिस बचाओ तहरीक 16-4-593/ए चानेटलगुडा, हैदराबाद-500024.(आन्ध्र प्रदेश)
- 354) मक्कल नालीटीमैक कड़गम (पीपुल्स लिबरल पार्टी) 629, अन्ना सलाई, चेन्नई-600006.(तमिलनाडु)
- 355) मक्कल शक्ति इयक्कम 17-ए, साउथ एवेन्यू, कामराजनगर, तिरुवनमिपुर, चेन्नई-600041 (तमिलनाडु)

- 356) मक्कल तमिल देशम 14, हनुमन्ता रोड, बालाजी नगर, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
- 357) मक्कल विलीपुनार्तु इयाकम सीरानामपालयम, पालाकडई-638057, बुडुपाथी (वाया), पेटन्दुरई तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु
- 358) मानव कल्याण संघ दल गदी स्थान-मेहतवाड़ा, तहसील-आस्था, जिला-मेहोरे(मध्य प्रदेश)
- 359) मानव समाज पार्टी 9538, गोशाला बारादही किशनगंज, दिल्ली-110006.
- 360) मानव सेवा पार्टी सी-6/28, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016.
- 361) मानव पार्टी जी-23, यूरेका टावर्स, किन्दूर चेन्नम्मा मर्किल, हुबली-580029. (कर्नाटक)
- 362) मणिपुर नेशनल कांग्रेस बाबूपारा इम्फाल, मणिपुर-795001
- 363) मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक) क्वार्टर नं0 1, टाईप-4, बाबूपारा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)
- 364) मनुवादी पार्टी 201, बिरहाना, पाडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004. (उत्तर प्रदेश)
- 365) मारालैंड डेमोक्रेटिक फंट सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला-(मिजोरम)
- 366) मरुमालारची तमिझाकम 1/19, ओनानमुडी(डा0), अनिमालय (वाया) पुडुकोटाई, जिला- (तमिलनाडु)
- 367) मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (एस.एस. श्रीवास्तव) सैदपुर, पटना-800004 (बिहार)
- 368) मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन 115-एम.एल.ए. फ्लैट, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800004. (बिहार)
- 369) मातृ भूमि विकास पार्टी मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांधा-210209. (उत्तर प्रदेश)
- 370) मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001, मेघालय।
- 371) मिनिस्टीरियल सिस्टम एबोलिशन पार्टी 25, बुरटोल्ता स्ट्रीट, कलकत्ता।
- 372) मोमिन कान्फेंस 47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)
- 373) मूल भारती (एस) पार्टी म0नं0 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट,(पंजाब)
- 374) मूवेन्दर मुन्नेत्र कडगम लेक एरिया, मेलूर रोड, मदुराई-625107. (तमिलनाडु)

- 375) मुक्त भारत एच-22, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048.
- 376) मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश सुल्तान मजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 377) नाग विदर्भ आन्दोलन समिति परदेसी तेलपुरा बजेरिया, शुक्ला लॉज के पास, नागपुर-440018. (महाराष्ट्र)
- 378) नागा नेशनल पार्टी हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल (मणिपुर)
- 379) नागालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी मं0नं0 65, रेजिडेन्सी कॉलोनी (पी.डब्लू.डी.) स्टेट स्टेडियम के पास, दीमापुर, नागालैंड, पिन-797112.
- 380) नागालैंड पीपुल्स फ्रंट बर्मा कैम्प, दीमापुर-797112. (नागालैंड)
- 381) नागरिक एकता दल बी-15, दीन दयाल नगर, फेज-II, एम0 डी0 ए0 मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश।
- 382) नमाधू मक्कल कौंची नं0 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कुरुवा, वेल्लोरे-632001, तमिलनाडु।
- 383) नेशनल काँग्रेस ऑफ यूथ पोस्ट बॉक्स नं0 6204, 2ए/37-38, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015.
- 384) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम, जिला-(केरल)
- 385) नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 386) नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी 46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001. (उत्तर प्रदेश)
- 387) नेशनल माइनॉरिटीज पार्टी 7ए, जंक्शन एस.बी.रोड एवम् बान्द्रा रेलवे स्टेशन रोड, लक्की होटल के सामने, बान्द्रा (पश्चिम) मुम्बई-400050. (महाराष्ट्र)
- 388) नेशनल ऑरगनाइजेशन कांग्रेस नं0 1, जीवन नन्दम, सलिया, के .के .नगर, चेन्नई-600078. (तमिलनाडु)
- 389) नेशनल पार्टी रुदेन, बदायूँ-202524. (उत्तर प्रदेश)
- 390) नेशनल पीपुल्स पार्टी मार्फत यूरोपोक नाओरेमथांग, इम्फाल-795001. (मणिपुर)
- 391) नेशनल रिपब्लिकन पार्टी टी-42/6, ओल्ड बैरक्स, चैम्बर कैम्प, मुम्बई-400074. (महाराष्ट्र)
- 392) नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी 16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004 (तमिलनाडु)
- 393) नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट कमरा नं0 6 व 7, नागा शापिंग आर्केड, दीमापुर (नागालैंड)

- 394) नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया 5ए, बेली रोड, इलाहाबाद-211002. (उत्तर प्रदेश)
- 395) नेटिव पीपुल्स पार्टी मुख्यालय-गोटे निवास, तीसगांव रोड, कल्याण (पूर्व)-421306. (महाराष्ट्र)
- 396) नव महाराष्ट्र विकास पार्टी सी-6, भास्कर दर्शन, अरुणोदय नगर, मुलुन्द पूर्व, मुम्बई-400081(महाराष्ट्र)
- 397) नव निर्माण नागरिक समिति 6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004 (कर्नाटक)
- 398) नवभारत निर्माण पार्टी 5/1, अशोक चेम्बरस, राजेन्द्र पार्क, बी-5, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060
- 399) नैसावालाह मुन्नेत्र काँची नं0 6, गंगा नगर, कोदाम्बक्कम, चेन्नई-600024.(तमिलनाडु)
- 400) नेताजी सुभाष पार्टी सहजनवा, जिला-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
- 401) न्यू इण्डिया नेशनल मूवमेन्ट 2, बिंगसिटी हाउस मस्जिद के पीछे, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
- 402) न्यू इण्डिया पार्टी म0 नं0 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)
- 403) निदया मलिक (एन) पार्टी 242, सिविल लाइन्स, गोण्डा-271001. जिला-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
- 404) निरसाबादा भूरिपक्षम 113, पदतूकल शापिंग काम्पलैक्स, द्वितीय तल, ईस्ट फोर्ट, त्रिवेन्द्रम फोर्ट, पो0-त्रिवेन्द्रम-केरल
- 405) निस्वार्थ सेवा पार्टी वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
- 406) एन.टी.आर. तेलुगु देशम पार्टी (लक्ष्मी पार्वती) रोड नं0 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034.(आन्ध्र प्रदेश)
- 407) न्यायनिष्ठ प्रजातन्त्र सैन्ट्रल हैड क्वार्टर और पो0-देवार (गोपेश्वर) 246401, जिला-चमोली, उत्तरांचल ।
- 408) उड़ीसा कम्यूनिस्ट पार्टी एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)
- 409) उड़ीसा कांग्रेस कमरा नं0 डी.एस. 1/19, एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर-750001 (उड़ीसा)
- 410) उड़ीसा गण परिषद् ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001

- 411) उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009.
(उड़ीसा)
- 412) पंचाल मोर्चा 137 बी-1, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049.
- 413) पंचायत राज पार्टी 106, पाकेट ए-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110034.
- 414) पारेहम पार्टी ऑफ इण्डिया 1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड सिविल लाइन्स,
अलीगढ़-202002 उत्तर प्रदेश।
- 415) परिवर्तन समाज पार्टी लोहा मंडी, जैन मंदिर के पास, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)
- 416) पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 183, जोधपुर पार्क, कोलकता-700068. (पश्चिम बंगाल)
- 417) पर्वतीय पुनरुत्थान परिषद् 64, फर्स्ट फ्लोर, अर्थचिनी, श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110016.
- 418) पश्चिम बंग राज्य मुस्लिम लीग 129, कोल्लिन स्ट्रीट, कलकत्ता-700016. (पश्चिम बंगाल)
- 419) पश्चिमबंगा गणतांत्रिक मंच फ्लैट नं० 56, ब्लॉक-एच, सी.आई.टी. बिल्डिंग, क्रिस्टोफर रोड,
कोलकता-700014. (पश्चिम बंगाल)
- 420) पश्चिम उत्तर प्रदेश स्वराज्य पार्टी सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 421) पवित्र हिन्दुस्तान कङ्गम 11, हरीश चन्द्र माथुर लेन, नई दिल्ली-110001.
- 422) पीजेन्ड्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया हरि खन्ने निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव, दादर,
मुम्बई (महाराष्ट्र)
- 423) पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट मुख्यालय-गुवाहाटी, एच.ओ. उदालगिरी,
जिला-दारंग बोडालेण्ड (असम)
- 424) पीपुल्स जस्टिस पार्टी 'कार अरुल', ए-87 कंडासामी सलाई 8वीं. स्ट्रीट पेरियर नगर,
चेन्नई-600028 (तमिलनाडु)
- 425) पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पो.ऑ. नाहर लागुन-791110 (अरुणाचल प्रदेश)
- 426) पीपुल्स डेमोक्रेटिक लीग ऑफ इण्डिया बिल्डिंग नं० 25, फ्लैट नं० 8, चिटनाविसनगर लेआउट,
बैरामजी टाउन, मेन्टल हॉस्पिटल के पास, नागपुर-13 (महाराष्ट्र)
- 427) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18
(केरल)
- 428) पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी साप्ताहिक जयश्रीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबुद्धी,
नागपुर-440012 (महाराष्ट्र)
- 429) फूले भारती लोक पार्टी 1793, गली नं० 1, न्यू कैलाश नगर, डाक घर बस्ती जोडेवाल,
लुधियाना, पंजाब

- 430) पिछड़ा समाज पार्टी मोहल्ला बाजार सराफा, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
- 431) लेक्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम पो0 व ऑ0-कोकाझाड़, जिला-कोकाझाड़ (असम)
- 432) पोलिटिकल पार्टी ऑफ नेशनल मैनेजमेंट सर्विस सी-546, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024.
- 433) पांडिचेरी मन्नीला मक्कल मुनानी 17, कुमारन स्ट्रीट, कामराजार नगर, पांडिचेरी-605001.
- 434) प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी एम0डी0-26-17/6, एस0आर0टी0आर0 एम0सी0 एच0 चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र।
- 435) प्रगतिशील मानव समाज पार्टी गांव-वाटी (नईपुरवा) पो0 दशरथपुर-221304. जिला-भादोही (उत्तर प्रदेश)
- 436) प्रगतिशील पार्टी 111, बादशाह नगर, लखनऊ-226007. (उत्तर प्रदेश)
- 437) प्रजा पार्टी 3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029. (आन्ध्र प्रदेश)
- 438) प्रिजम टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा-324005 (राजस्थान)
- 439) प्रोप्रोसिव हुल झारखण्ड पार्टी (शिबू ग्रुप) गिधानी पहाड़ी, दुमका-814101 (झारखंड)
- 440) प्राउटिस्ट सर्व समाज 10/105ए, सैक्टर-3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 441) पंजाब पीपुल्स पार्टी 14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303. (उत्तर प्रदेश)
- 442) पंजाब जनता मोर्चा पंज पीर, जालन्धर शहर-144001 (पंजाब)
- 443) पंजाब प्रदेश विकास पार्टी मुख्यालय-एच.आई.जी.-970, पी.एच.बी. कॉलोनी, अरबन एस्टेट, फोकल प्वाइंट, लुधियाना (पंजाब)
- 444) पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब।
- 445) पंजाबी दल मकान नं0 बी.बी./30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101 जिला-संगरूर (पंजाब)
- 446) पुराची भारतम नं0 54, नेशनल हार्डवे, पूनामत्ता, चेन्नई-56, (तमिलनाडु)
- 447) पूर्वांचल विकास पार्टी एल-131, गली नं0 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110037
- 448) पुथिया नीधि कॉची 6, नार्थ बोग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)

- 449) पुष्पिया तमिलागम 132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई-600002. (तमिलनाडु)
- 450) पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया 2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति-517501. (आन्ध्र प्रदेश)
- 451) कौमी पार्टी 930, स्ट्रीट नं० 30/7, जाफराबाद, दिल्ली-110053.
- 452) कौमी जनता दल 9-बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 453) राजस्थान वीर सेना 1-8-17 (एस.एफ.एस.) डा० शीला चौधरी रोड, तलवडी, कोटा-324005. (राजस्थान)
- 454) राजस्थान विकास पार्टी 43, चॉंद बिहारी नगर, खादीपुरा रोड, जयपुर-302012. (राजस्थान)
- 455) राजीव मक्कल कांग्रेस नं०-16 (पुराना नं० 18), विश्वनाथपुरम, III स्ट्रीट, कोडाम-बक्कम, चेन्नई-600024, तमिलनाडु
- 456) रामराज्य मार्ग नं० 17, वीनस कॉलोनी, सेक्रेड स्ट्रीट अलवरपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
- 457) राष्ट्र शक्ति 1112, एस/5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा।
- 458) राष्ट्र सुरक्षा परिषद् कोठी नं० ए-2/79, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063.
- 459) राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बेगारिया का खेड़ा, पो०आ०-बरवान कला, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 460) राष्ट्रवादी जनता पार्टी 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081
- 461) राष्ट्रीय एकता मंच ए-1, विकास एनकलेव, हसथल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
- 462) राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019
- 463) राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी आलोक नगर, एयर फोर्स, बरेली-243122. (उत्तरांचल)
- 464) राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा सेन्ट्रल ऑफिस-शिवाजी नगर, आबू पर्वत-307501, जिला-सिरोही (राजस्थान)
- 465) राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी 601, रोहित हाउस, 3-दालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001
- 466) राष्ट्रीय देशभक्त पार्टी बी-61, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018.
- 467) राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी 108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

- 468) राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी चक्रशानपुर (कैमराला) पो0आ0 गौरी बछेरा (दादरी),
जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- 469) राष्ट्रीय गुरुजन पार्टी गुरुजन विद्याभवन, दूध सागर मार्ग, राजकोट-3 गुजरात ।
- 470) राष्ट्रीय हित कांग्रेस 712-जी-ब्लॉक, मिलिंदी रोड, कथोल बाग, नई दिल्ली-110005
- 471) राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी जी-290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली-110095.
- 472) राष्ट्रीय जन संगम शर्मा कुंज, शिवपुरी, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)
- 473) राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष 'पोवरामवन' नं0 567 (38) 60 फीट रोड,
मोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर-560054. (कर्नाटक)
- 474) राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी सूरज का पुरवा, अतरारुल, पो.ऑ. अतरा, जिला-बौदा,
उत्तर प्रदेश ।
- 475) राष्ट्रीय जनसेवक परिषद् देवकन्या सदन, वाटर टैंक के पास, त्रिपोलिया रोड,
बक्सवाड़ा-327001. (राजस्थान)
- 476) राष्ट्रीय जनता कांग्रेस ए-4, स्वर्ण सिंह रोड, आदर्श नगर, नई दिल्ली-110033.
- 477) राष्ट्रीय किसान पार्टी गांव व पो0-धानौषा, तहसील व जिला-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
- 478) राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर-361001.(गुजरात)
- 479) राष्ट्रीय कान्ति पार्टी 2, माल एवेन्यू, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 480) राष्ट्रीय कान्तिकारी दल गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.
- 481) राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा 206, लव कुश टावर, एक्जीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार ।
- 482) राष्ट्रीय महासंघ एन.आर. काम्लेक्स, नगर पालिका ऑफिस के सामने,
अजमेर-305001 (राजस्थान)
- 483) राष्ट्रीय मानव अधिकार कांग्रेस पार्टी 17/700, ग्राम-गोपालपुर, पो0-आजादपुर(तिमारपुर),
दिल्ली-110009
- 484) राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं0 57, बुगरी रोड,
दिल्ली-110009.
- 485) राष्ट्रीय व्याघ्र पार्टी कॉलेज रोड देहरी, तहसील नुरपुर, जिला-कांगड़ा,
पिन कोड-176022. (हिमाचल प्रदेश)
- 486) राष्ट्रीय परिवर्तन दल जन बी.एस.पी.ए. हाऊस, 4/93, विशाल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

- 487) राष्ट्रीय पार्टी गया प्रसाद धर्मशाला कॉम्प्लेक्स चारबाग, सब्जी मंडी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 488) राष्ट्रीय प्रजा कांग्रेस (सेक्यूलर) 12-11-113, ए.बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
- 489) राष्ट्रीय राजधानी कांग्रेस दिल्ली 8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली-110006.
- 490) राष्ट्रीय रक्षा दल मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर-22ए, चंडीगढ़ ।
- 491) राष्ट्रीय समाधान पार्टी 121-ए0,आर0-3/ए0-2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059
- 492) राष्ट्रीय समाज सेवक दल भीरा खीरी, जनपद-खीरी-262901. (उत्तर प्रदेश)
- 493) राष्ट्रीय समाज सुधार पार्टी गांव ताब्बी, पो0-घोडी, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा)
- 494) राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस मकान नं0-जे-12/57-ए, धूपचंडी (लेबर कॉलोनी) वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
- 495) राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड) 9, कम्युनिटी सेक्टर, अशोक विहार, फेस-II, दिल्ली-110052
- 496) राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी 'प्रगतिशील' बी-248, मोहन नगर, शाहीपुर, मोरार, गवालियर (मध्य प्रदेश)
- 497) राष्ट्रीय सामन्त दल 8/440 त्रिलोक पुरी, दिल्ली-110091.
- 498) राष्ट्रीय स्वर्ण दल दुबे का परव, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)
- 499) राष्ट्रीय सुराज्य परिषद् मृदुल टावर, भूतल, कैलाश सोसाइटी, एच.के. हाउस लेन, आश्रम रोड, अहमदाबाद -380009.(गुजरात)
- 500) राष्ट्रीय स्वजन पार्टी घाघा घाट रोड, मलेरिया कार्यालय के पास, महेन्द्र, पटना-800006. (बिहार)
- 501) राष्ट्रीय उन्नतिशील दल एफ 167, चांद बाग, पो0-कुलपुर, दिल्ली-110094.
- 502) राष्ट्रीय विकास पार्टी 195, मेन अशोक एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा ।
- 503) राष्ट्रीय युवा लोकतांत्रिक पार्टी चैम्बर नं0 461, न्यू चैम्बर कॉम्प्लेक्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली-110001.
- 504) रिपब्लिकन जनता पार्टी डी-29, गांधी विहार, डी.डी.ए. कॉलोनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009.
- 505) रिपब्लिकन मुवमेंट पो0बो0 नं0 117, तादोबारोड़, तुकुम, चन्द्रापुर, -442401, महाराष्ट्र ।

- 506) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ई.एन.एस.ए. हटमेन्ट, आई-ब्लॉक, महापालिका मार्ग, आजाद मैदान, मुम्बई-400001. (महाराष्ट्र)
- 507) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाहुर-413572 (महाराष्ट्र)
- 508) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले) 11/174, आदर्श नगर, प्रभादेवी, मुम्बई-400025. (महाराष्ट्र)
- 509) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज) 10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023. (तमिलनाडु)
- 510) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए) 17/69, थानसिंह नगर, आनन्द पर्वत, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005.
- 511) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे) गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)
- 512) रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया उरुली-कंचन, पुणे-412202. (महाराष्ट्र)
- 513) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट) 84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700025. पश्चिम बंगाल
- 514) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (बोत्सोविक) टी.सी. 25/507, यू.टी.यू.सी. बिल्डिंग, थम्पानूर, तिरुवनंतपुरम-695001. (केरल)
- 515) सबजन पार्टी सी-1/50, यमुना बिहार, दिल्ली-110053.
- 516) सबका दल भारतीय समाजवादी कांग्रेस एन-14/169, सरईनन्दन (खोजवा), वाराणसी-221010 (उत्तर प्रदेश)
- 517) सचेत भारत पार्टी 13/ए/5, शिवाजी नगर, नं० 1, गोवन्दी, मुम्बई-43 (महाराष्ट्र)
- 518) सद्भावना पार्टी कमरा नं० 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018. (उत्तर प्रदेश)
- 519) साही पार्टी 15, नसीरुद्दीन लेन, पहाड़ी टोला, राँची-834001. (झारखंड)
- 520) शक्ति भारत देशम् सं० 2/58, वैरावन चेदटी स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीशुराई, मदुरै-625001 तमिलनाडु।
- 521) सामाजिक एकता पार्टी 22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001. (हरियाणा)
- 522) सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट-गोपालगंज-841428, जिला-गोपालगंज (बिहार)
- 523) सामाजिक न्याय पार्टी एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)
- 524) समाजवादी जन परिषद् जय मात्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम)-400601. (महाराष्ट्र)

- 525) समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) नरेन्द्र निकेतन, पुलिस मुख्यालय के पीछे, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.
- 526) समाजवादी जनता पार्टी (महाराष्ट्र) बैंक नं० 4, यशोधन दिनशा वाचा रोड के पीछे, चर्च गेट, मुम्बई-400020. (महाराष्ट्र)
- 527) समता संघर्ष पार्टी 618-एफ-2/2/1, शंकर गली, विश्वास नगर, दिल्ली-110032
- 528) समुदाय मुनेत्रा कजगम नं० 32, न्यू टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई-600034, तमिलनाडु
- 529) सनातन समाज पार्टी रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)
- 530) संयुक्त दस्तकार पार्टी पी-205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली-110002.
- 531) सर्वहिन्द शिरोमणी अकाली दल 103, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)
- 532) सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी बी-31 भूतल, लाजपत नगर-1 नई दिल्ली-110024.
- 533) सर्व सेवा पार्टी बी-51, प्रताप विहार, पार्ट-3, नांगलोई, दिल्ली-110041.
- 534) सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश) सी-44, पद्मनाभ नगर, भोपाल-462023. (मध्य प्रदेश)
- 535) सर्वहारा समाज पार्टी 68-ए ब्लॉक, दासलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 536) सर्वहारा दल केवला फरियट्टा, बाया-गिधौर, जिला-जमुई (बिहार)
- 537) सर्वोदय पार्टी पी-3, यूनिवर्सिटी कैम्पस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर-302004. (राजस्थान)
- 538) सत्य मेव पार्टी 548, रामदास पाटे, नागपुर-10 (महाराष्ट्र)
- 539) सत्युग पार्टी फ्लैट नं० 203, बिल्डिंग नं० 6-4-323/ए, विवेक वंशी रेजिडेन्सी, मेकलर मंडी रोड, भोलकपुर, सिकन्दराबाद-500080. (आन्ध्र प्रदेश)
- 540) सवर्ण समाज पार्टी ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001 (मध्य प्रदेश)
- 541) सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपाड़ा नगर, मुन्डाक्कल, कोलम शहर, कोलम-691001, केरल।
- 542) सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया मं० नं० 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007 (जम्मू व कश्मीर)
- 543) सहजधारी सिख फेडरेशन 622/9, टेलीफोन एक्सचेंज, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब।

544)	शक्ति दल	ए-4, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
545)	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र)
546)	शिक्षित बेरोजगार सेना	कम्मू कटरा सदरगांज, शबनम टेलर, मरयाहुन, जोनपुर, उत्तर प्रदेश।
547)	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलोन)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब)
548)	शोषित समाज दल	सैटर ऑफिस:-दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001 (बिहार)
549)	शोषित समाज पार्टी	327, कृषि अपार्टमेंट, डी. ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018.
550)	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद	मेदो प्वाइंट पांचवामाइल ठाडोंग, गंगटोक सिक्किम पूर्व।
551)	सिक्किम जनशक्ति पार्टी	रानीपूल मार्चक, चाकुंग हाउस, पो.ऑ.-रानीपूल, गंगटोक (सिक्किम)
552)	सिक्किम नेशनल लिबरेशन फ्रंट	31-ए, नेशनल हाईवे, पो.ऑ.- गंगटोक (सिक्किम)
553)	सिंह जन सेवा पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेराबल-362265. (गुजरात)
554)	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
555)	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिदा जिला, पिन-689072. (केरल)
556)	सोशल जस्टिस पार्टी	नं0 73, इल्लैअमन कॉलोनी, तेयनामपेट, चेन्नई-600086. (तमिलनाडु)
557)	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्दीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
558)	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, द्यूटर्स, लेन, स्टैच्यू: त्रिवेन्द्रम-695001. (केरल)
559)	स्वराज दल	नं0-4, स्टाप, पादर गुड्डा पोस्ट गाराहेहराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
560)	स्वतंत्र भारत पक्ष	'राही' खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001.(महाराष्ट्र)
561)	तमिल देसियक काँची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेलम-636007 (तमिलनाडु)
562)	तमिल मनिता कामराज कांग्रेस	मार्फत एफ0बी0 बेजामिन जॉर्ज, वकील, नं0 17, इमिंग गली, सनथोम, चेन्नई-600004, तमिलनाडु।

- 563) तमिलनाडु देसीया ग्रामीया थोडिलालर कांग्रेस 5/58, मनियम बिल्डिंग थ्रीटीपालयम पोस्ट, कोयम्बटूर-641010. (तमिलनाडु)
- 564) तमिलनाडु मक्कल कांग्रेस 310, बी ब्लॉक, बूपति नगर, चेन्नई-600024 (तमिलनाडु)
- 565) तमिलनाडु पीजेन्ड्स एण्ड वर्कर्स पार्टी नं० 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
- 566) तमिलनाडु पीपुल्स पार्टी 16/2, के.पी. स्ट्रीट, मडलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)
- 567) तमिलनागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम 563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, त्रिनिवेली, तमिलनाडु
- 568) तमिलार देसिया इयाक्कम 9, सुन्दरेश्वरार स्ट्रीट, मडलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)
- 569) तमिलार कडगम 180, लोंगली रोड, शेवापेट, सलेम-636002. (तमिलनाडु)
- 570) तमिलनागा मुन्नेत्र मुन्नानी नं० 152 ए, नार्थ-उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
- 571) तमिलनागा राजीव कांग्रेस 6-11, मेन रोड, राजा अन्नामलाई पुरम, चेन्नई-600028. (तमिलनाडु)
- 572) तमिलार पार्टी 8/43, एम.टी.सी. रोड, मदुरै डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
- 573) तराई कान्ति दल 21/2, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 574) तेलंगाना प्रजा पार्टी अनन्त निलयम, द्वार सं० 14-9-519, चुडी बाजार दरगाह, हैदराबाद-500012. (आन्ध्र प्रदेश)
- 575) तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मकान नं० 8-2-220/110/1/3, रोड नं० 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
- 576) त्याग मक्कल काची 7, वाई.बी.डी. काम्पलैक्स, चतीराम बस स्टैंड, तिरुचिरापल्ली-620002. (तमिलनाडु)
- 577) तमिलार भूमि 5, डा. सर.सी.बी. रामण, फर्स्ट स्ट्रीट कुमारन नगर, त्रिचिरापल्ली-620017. (तमिलनाडु)
- 578) तरासु मक्कल मंडराम 14-सैत कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट, इम्मोर-600008. (तमिलनाडु)
- 579) दि कम्यूनर पार्टी ऑफ इंडिया देशमुखवाडी काम्पलैक्स, पी०के० रोड और जावेर रोड जंक्शन मुलुब् (पश्चिम) मुम्बई-400080, महाराष्ट्र
- 580) द ग्रेट इंडिया रिवोल्यूशनर्स 4/55, रूप नगर, दिल्ली-110007.

581) द ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ना कुज (पश्चिम), मुम्बई-400054. (महाराष्ट्र)
582) द रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-परगना (उत्तर)-743235. (पश्चिम बंगाल)
583) थोल्डर कॉंग्रेस	40-वेंकटनाथन रोड, त्यागरायनगर, चेन्नई-600017 तमिलनाडु।
584) द्राइबल पीपुल्स पार्टी	170, लिंगी चांदी स्ट्रीट, चेन्नई-600001.(तमिलनाडु)
585) त्रिलोक शक्ति कांग्रेस भारत	49-डी, त्रिवेणी नगर, नैनी, उद्योग नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
586) तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी-781006, असम।
587) यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फंड	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी (असम)
588) यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी-29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
589) यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	नं0 2, 50वीं स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083. (तमिलनाडु)
590) यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामादम मूजनूर पो.ऑ. कोटायम जिला (केरल)
591) यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, II-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010 (कर्नाटक)
592) यूनाइटेड माइनॉरिटीज फंड ऑफ असम	उलूबारी, गुवाहाटी-781007 (असम)
593) यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस.एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी-781001, असम
594) यूनाइटेड रिवर्सेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बॉ. नं0 2, पो0-रेहाबाड़ी, गुवाहाटी-781008 (असम)
595) यूनाइटेड द्राइबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फंड	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग-784510. (असम)
596) उत्तर प्रदेश जन मानस पार्टी	ए-1445/6, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016.(उत्तर प्रदेश)
597) उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ-226004. (उत्तर प्रदेश)
598) उत्तराखंड संस्कृति परिषद्	डी-355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली-110092.
599) उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53-के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल

- 600) उझैप्पलर काची 70-डी, पलानीसामी स्ट्रीट, वाणीयामबाडी रोड, विरुपादट्टर-635601. वेल्लोर जिला, तमिलनाडु।
- 601) उझैप्पलर पोषु नालाकाची तिरुपदट्टर वेल्लोर जिला तमिलनाडु-635601.
- 602) विदर्भा विकास पार्टी ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाड़ा रोड, नागपुर-13, महाराष्ट्र
- 603) विदर्भ राज्य मुक्ति मोर्चा ए टाइप, सुखकर्ता अपार्टमेन्ट, बलराज मार्ग, घनताली, नागपुर-440012, (महाराष्ट्र)
- 604) विधायक दल एच0आई0जी0-205, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 605) विजेता पार्टी 501, अभिषेक प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001. (बिहार)
- 606) विकास पार्टी सत्याग्रह मार्ग, दारुल सफा कम्पाउंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 607) विकासवादी कम्यूनिज्म पार्टी मखदुमपुर रोड, मवाना कलां, 250401. जिला-मैरठ (उत्तर प्रदेश)
- 608) विश्व माया पॉलिटीकल पार्टी 6 डी-6-18(हाउस नं0), मारकडेश्वर, स्वामी टैम्पल के पास, सदरन स्ट्रीट, इलुरु-534001, जिला पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश।
- 609) विवासायी अनभु काची नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतारामेरूर-603406. (तमिलनाडु)
- 610) वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी 42, इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
- 611) यूथ ब्रिगेड गांव काकगाची, डा0 भन्देरहाली, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल।
- 612) युवा गणतन्त्र पार्टी सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 613) युवा जन जागृति पार्टी बहलोलपुर, बुलंदशहर-202391, उत्तर प्रदेश।

सारणी-4
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1)	वायुयान
2)	अलमारी
3)	कुल्हाड़ी
4)	गुब्बारा
5)	केला
6)	चड़ियों
7)	टोकरी
8)	बत्ता
9)	बत्तेबाज
10)	बैटरी-टार्च
11)	मोतियों की माला
12)	ब्लैक बोर्ड
13)	किताब
14)	डबलरोटी
15)	ईंट
16)	पुल
17)	ग्रीफकेस
18)	बैंगन
19)	बुश
20)	बंगला
21)	फेक
22)	कैमरा
23)	मोमबत्तियाँ
24)	कार
25)	कैरम बोर्ड
26)	गाजर
27)	छत का पंखा
28)	फोट
29)	नारियल
30)	कंधा
31)	चारपाई
32)	कप और प्लेट
33)	दाव
34)	डीजल पम्प
35)	डोली
36)	बिजली का खंभा
37)	लिफाफा
38)	कांटा
39)	फाक
40)	फाइंग पैन
41)	गैस सिलेण्डर
42)	गैस का चूल्हा
43)	काँच का गिलास
44)	हैंगर
45)	हारमोनियम

- 46) लोप
 47) आइस क्रीम
 48) स्याही की दवात और कलम
 49) प्रेस
 50) जग
 51) केतली
 52) पतंग
 53) लेडी पर्स
 54) लैटर बाक्स
 55) ताला और चाबी
 56) मक्का
 57) नगाड़ा (उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
 58) नैकटार्ड
 59) प्रेशर कुकर
 60) रेल का इंजन
 61) अंगूठी
 62) रोड रोलर
 63) आरी
 64) कैंची
 65) सिलाई की मशीन
 66) शटल
 67) स्लेट
 68) चम्मच
 69) स्टूल
 70) मेज
 71) टेबल लैम्प
 72) टेलीविजन
 73) टेन्ट
 74) टाफी
 75) वायलिन
 76) छड़ी
 77) सीटी
 78) ऊन

[सं. 56/2003/न्यायिक-III]

आदेश से,

ए. के. मजूमदार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2003

O.N.2(E).—WHEREAS, the Election Commission has decided to update its notification No. 56/2002/Jud.III, dated 10th January, 2002, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as amended from time to time;

2 NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid principal notification No. 56/2002/Jud.III, dated 10th January, 2002, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), and as amended from time to time, the Election Commission hereby specifies, -

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them;
- (b) In Table II, the State parties, the State or States in which they are State parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarter; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

TABLE – I
NATIONAL PARTIES

Sl. No.	National Parties	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the States of Assam and Sikkim, where its candidates will have to choose another symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	12, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi -110001.
2.	Bharatiya Janata Party	Lotus	11, Ashoka Road, New Delhi – 110001
3.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002
4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi – 110011
6.	Nationalist Congress Party	Clock	10, Bishambhar Das Marg, New Delhi-110001.

TABLE – II**STATE PARTIES**

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh)
2.	Arunachal Pradesh	Arunachal Congress	Two Daos Intersecting	G-Extention, Naharlagun, (Arunachal Pradesh)
3.	Assam	1. Assom Gana Parishad	Elephant	Head Office:- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam.)
		2. Communist Party of India (Marxist Leninist) (Liberation)	Flag with three Stars	U-90, Shakarpur, Delhi-110092.
4.	Bihar	1. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Bihar).
		2. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V. P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Samata Party	Flaming Torch	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		4. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
5.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Vikas 'A' Building, 3 rd Floor, Near Pharmacy College, 18 th June Road, Panaji-403001 (Goa)
		2. United Goans Democratic Party	Two Leaves	1 st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
6.	Haryana	Indian National Lok Dal	Spectacles	100, Lodhi Estate, New Delhi.
7.	Himachal Pradesh	Himachal Vikas Congress	Telephone	Samkhetar Bazar, Mandi-175001 (Himachal Pradesh).
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (Jammu & Kashmir)
				(ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (Jammu & Kashmir).
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party	To be notified later	Nowgam Bye-Pass, Srinagar (J & K).
9.	Jharkhand	1. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Bihar).
		2. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V. P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Samata Party	Flaming Torch	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.
		4. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.
		2. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi – 110001.
11.	Kerala	1. Kerala Congress	Bicycle	State Committee Office, Near Star Theatre Junction, Kottayam South (Kerala)
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Muslim League Kerala State Committee	Ladder	Kerala State Committee, League House, Red Cross Road, Calicut-32 (Kerala)
		4. Janadhipathya Samrakshana Samithi	Bus	Janadhipathiya Samrekshna Samiti, Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
12.	Maharashtra	Shivsena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra)
13.	Manipur	1. Federal Party of Manipur	Rising Sun	Soram Leirak, Naga Mapal, Imphal-795001 (Manipur)
		2. Manipur People's Party	Bicycle	People's Road, Imphal-795001 (Manipur)
		3. Manipur State Congress Party	Cultivator Cutting Crop	Keishampat (Opposite Raj Bhawan), Imphal-795001, (Manipur).
		4. Samata Party	Flaming Torch	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.
14.	Meghalaya	1. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong-793004 (Meghalaya)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		2. People's Democratic Movement	Two Swords & a Shield	Mawlai Nongkwar, Shillong-793008 (Meghalaya).
		3. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizwal (Mizoram)
		2. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
16.	Orissa	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).
17.	Pondicherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu)
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu)
		4. Tamil Maanila Congress (Moopanar)	Bicycle	Satyamurthy Bhavan, General Patters Road, Chennai-600002 (Tamil Nadu)
		5. Pudhucherry Makkal Congress	Bell	76, Calve Subbrary Chettiar Street, Pondicherry-605001.
18.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	House No.256, Sector-9 C, Chandigarh.
		2. Shiromani Akali Dal (Simranjit Singh Mann)	Cart	Flat No. 36, Sector-4, Chandigarh.
19.	Sikkim	1. Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gongtok, East Sikkim.
		2. Sikkim Sangram Parishad	Elephant	Sangram Bhavan, Jewan Theeng Marg, Gangtok (Sikkim)
20.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.

3. Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam Top 'THAYAGAM',
No.141, Rukmani
Lakshmi Pathi Salai,
Egmore, Chennai-
600008 (Tamil Nadu).

4. Tamil Maanila Congress (Moopanar) Bicycle Satyamurthy Bhavan,
General Patters Road,
Chennai- 600002
(Tamil Nadu)

5. Pattali Makkal Katchi Mango 63, Nattu Muthu
Naiken Street, Vanniya
Teynampet,
Chennai-600018
(Tamil Nadu)

21. Tripura 1. Revolutionary Socialist Party Spade & Stoker 37, Ripon Street
(Muzaffar Ahmed Sarani),
Calcutta-700016
(West Bengal)

2. Indigenous Nationalist Party of Twipra Two Leaves Abhoyanagar,
Agartala-799005
(Tripura)

3. All India Trinamool Congress Flowers & Grass 30-B, Harish Chatterjee
Street, Calcutta-600026
(West Bengal)

22. Uttar Pradesh 1. Samajwadi Party Bicycle 18, Copernicus Lane,
New Delhi

2. Rashtriya Lok Dal Hand Pump 15, Windsor Place,
New Delhi-110 001.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.

23.	Uttaranchal	1. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi
		2. Uttarakhand Kranti Dal	Chair	Central Office: Panchakuti, Malital, Nainital, (Uttaranchal).
24.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi -110001
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Calcutta-700016 (West Bengal)
		3. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Calcutta-600026 (West Bengal)

TABLE – III
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P)
2.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136. Distt. Bulandshahr, (U.P.)
3.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
4.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
5.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan)
6.	Akhand Bharat Ekta Andolan	Basant Bhawan, 17/34, Singhan Street, Kashipur-Pin Code-244713, Distt. Udhm Singh Nagar (Uttaranchal).
7.	Akhand Bharti	E-5 (1 st Floor), Bali Nagar, Shivaji Marg, New Delhi-110015.
8.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
9.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh)
10.	Akhil Bharatiya Bharat Mata – Putra Paksha	Office – Nandurbar, Pin-425412, Distt. Dhulia (Maharashtra).
11.	Akhil Bharatiya Bhrastachar Nirmoolan Sena	Om Building, Chhatrapathi Shivaji Chowk, Gondhale Nagar, Hadpsar, Pune-411002 (Maharashtra)

12.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
13.	Akhil Bharatiya Dastkar Morcha	Chamber No.187, New Delhi Courts, Patiala House, New Delhi-110001.
14.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar)
15.	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.)
16.	Akhil Bharatiya Garib Mazdoor Kisan Party	4/74, Sector-IV, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062.
17.	Akhil Bharatiya General Labour Party	A-3/85, Nand Nagari, Delhi - 93
18.	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling - 734101(West Bengal)
19.	Akhil Bharatiya Jan Sangh	J-394, Shankar Road, New Delhi -110060
20.	Akhil Bharatiya Janata Congress	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
21.	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh)
22.	Akhil Bharatiya Lok Tantrik Alp-Sankhyak Jan Morcha	Village Barve, Post Dahu, P.S.Ormanazi, Distt. Ranchi (Bihar)
23.	Akhil Bharatiya Lokraj Party	H.O.Raghubir Nagar, Ballabgarh, Faridabad (Haryana).
24.	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.)
25.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B.Enclave, Delhi-110093.
26.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.)
27.	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
28.	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).

29.	Akhil Bharatiya Rajivwadi Congress (Dubey)	WZ-8-93, Tanwar Market, Ring Road, Naraina, New Delhi-110028.
30.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Gaughat, Mathura (U.P).
31.	Akhil Bharatiya Rashtriya Azad Hind Party	H.O. 1 R 11-12 Vistar Yojna Dadabari, Kota (Rajasthan).
32.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
33.	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
34.	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Bombay-400079 (Maharashtra).
35.	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
36.	Akhil Bhartiya Berozgaar Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
37.	Akhil Bhartiya Janata Vikas Party	21-D, Pocket A-3, Everest Apartment, Kalkaji Extention, New Delhi – 110019
38.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (Uttar Pradesh)
39.	Ali Sena	1/1, Jafraabad, New Seelampur, Delhi-110053.
40.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Calcutta-700054 (West Bengal)
41.	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1 st Street, Madurai- 625010 (Tamil Nadu)
42.	All India Gareeb Congress	A-1/126, Sector-6, Rohini, New Delhi
43.	All India Homeless People Congress	Nabagram Garia, P.O. Panchpota, South 24 Parganas-743516 (West Bengal).

44.	All India Indira Congress (Secular)	2680, Chooriwalan, Delhi-110006.
45.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab).
46.	All India Mahila Raj Party	5A, Orient Row, Calcutta-700017 (West Bengal).
47.	All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh)
48.	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001.
49.	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107 (Tamil Nadu).
50.	All India Muslim Forum	C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
51.	All India People's Party	Central Committee, Ghandhi Nagar – 1 st Line, Berhampur-760001 (Orissa).
52.	All India Rajiv Krantikari Congress	B-68, Jagat Puri, Delhi-110051.
53.	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
54.	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
55.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh)
56.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
57.	All Jharkhand Students Union	Saket Vihar, Harmu, Ranchi, Ranchi-834 002 (Jharkhand).
58.	All Kerala M.G.R. Dravida Munnetra Party	Das Building Nemom P.O. Thiruvananthapuram-695 020 (Kerala)
59.	All Party Hill Leaders Conference (Armison Marak Group)	P.O. Tura Chandmari, West Garo Hills-794002 (Meghalaya)

60.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayu, Uttar Pradesh.
61.	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
62.	Ambedkar Peoples Movement	39, Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
63.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
64.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
65.	Ambedkarbadi Party	136/1, Diamond Harbour Road, Calcutta-700063 (West Bengal).
66.	Ambedkarist Republican Party	20, Dhandiwal Lay-out, Ring Road, Joginagar, Nagpur-440 027 (Maharashtra).
67.	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Calcutta-700004 (West Bengal)
68.	Anaithindhia MGR Katchi	68, Habibullah Road, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
69.	Anaithinithiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu)
70.	Andaman Nicobar Vikas Congress	MB-23, M.G. Road, Middle Point, Port Blair-741 001, (Andaman Nicobar Islands)
71.	Andhra Nadu Party	10-5-14/1, Masab Tank, Hyderabad-500028 (Andhra Pradesh).
72.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).

73.	Anna Telugu Desam Party	4-1-825/8,9 and 10, NTR Estates, Abids, Hyderabad-500001, Andhra Pradesh.
74.	Anndata Party	Mandir Sri Purushottam Bhagwan, Chandrabhaga-326023, Jhalrapatan City, District-Jhalawar (Rajasthan).
75.	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.)
76.	Apna Hindu Ram Bhakat Party	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
77.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
78.	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
79.	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauz Khas Ext., Malviya Nagar, New Delhi-110017.
80.	Bahujan Ekta Party (R)	2151/17A/12, New Patel Nagar, New Delhi-110008.
81.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
82.	Bahujan Republican Party	H.No.1-7-1046/18, SRT Quarters-18, Azamabad, Ramnagar, Hyderabad-500020 (Andhra Pradesh).
83.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	Village & Post Office Segti, Distt. Ambala (Haryana).
84.	Bahujan Vikas Party	B-3/512, J.J.C. Raghubir Nagar, New Delhi - 110027.
85.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O., P.S. and District - Karimganj, Pin-788711, Assam.
86.	Bharat Dal	Bharat Sevadham Aranyak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P.).
87.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh)
88.	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh)

89.	Bharat Kranti Rakshak Party	Purani Bazar, Post Bharwari, District Kaushambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
90.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
91.	Bharat Nav Jyoti Sangh	18/25-A, Kursava, Fulbagh, Kanpur-208001 (Uttar Pradesh).
92.	Bharat Pensioner's Front	R-17, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016.
93.	Bharatha Makkal Congress	N.30, Veluchetty Street, S.Kadiyur, Jolarpet, North Arcot Distt. (Tamil Nadu).
94.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4 th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
95.	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab)
96.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal -462022 (M.P.)
97.	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna -800001 (Bihar).
98.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O.Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal)
99.	Bharatiya Democratic Dal	No. 1A, Gangai Amman Koil, Second Street, Vadapalani, Chennai-600026 (Tamil Nadu).
100.	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
101.	Bharatiya Hindu Sena	Amer Bhawan, Amer, Jaipur (Rajasthan).
102.	Bharatiya Jai Jawan Jai Kisan Party	Near Truck Union, Jhajjar, Distt-Rohtak (Haryana).
103.	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddarth Nagar, Uttar Pradesh.

104.	Bharatiya Jan Congress	5158/XV, Mahalaxmi- Building, Behind Ramakrishna Mission, Paharganj Lane, New Delhi - 110055
105.	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh)
106.	Bharatiya Jan Kisan Party	35-C/2, Jaynteeपुर, Dhumanganj, Allahabad-211011 (Uttar Pradesh).
107.	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P)
108.	Bharatiya Jan Vikas Party	East Ashok Nagar, Post-Gulab House, Road No.14A, Kakkarbagh, Patna-20, Bihar.
109.	Bharatiya Jantantrik Parishad	8/1, Outside Datia Gate, Jhansi-284001 (U.P.)
110.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
111.	Bharatiya Kisan Kamgar Party	214, Shahpur Jat, New Delhi-110049.
112.	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
113.	Bharatiya Krantikari Kammand Party	214, LIC Colony, Tagore Town, Allahabad-211002 (U.P.)
114.	Bharatiya Labour Party	B.P. 281, Ravi Nagar, Mughalasarai, Varansai -232101 (U.P.)
115.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh)
116.	Bharatiya Lokekta Congress Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-45.
117.	Bharatiya Manav Raksha Dal	Barkhera, Pathani, Bhopal-21 (Madhya Pradesh).
118.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.

119.	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J. Road, Opp. J.J. Hospital Bombay-400008 (Maharashtra)
120.	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
121.	Bharatiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
122.	Bharatiya Muslim Party (Siddiqui)	Village Surajpur, P.O. Raradeoria, Distt. Khiri-262071 (Uttar Pradesh)
123.	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
124.	Bharatiya Navshakti Party	5, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi - 110001.
125.	Bharatiya Parivartan Morcha	3/8, Shah Nagar, Mangla Puri Terminal, Palam, New Delhi
126.	Bharatiya Peoples and National Security National Party	C/o Hotel Nanda, 5 th Cross Gandhinagar, Bangalore-560009 (Karnataka).
127.	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
128.	Bharatiya Prajatantra Party	Patel Nagar, Road. No.9, Patna-23 (Bihar)
129.	Bharatiya Rajiv Congress	145, A-1, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
130.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
131.	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001 (Madhya Pradesh).
132.	Bharatiya Rashtriya Morcha	Navdiya Fatehgarh, Farukhabad (U.P).
133.	Bharatiya Rashtriya Parishad	E-164, Samastpur Road, Pandav Nagar, Delhi-110092.

134.	Bharatiya Rashtriya Praja Manch	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Etah (Uttar Pradesh).
135.	Bharatiya Republican Paksha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Bombay-400014 (Maharashtra)
136.	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
137.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P.)
138.	Bharatiya Samaj Sangathan Morcha	Manak Mau, Gangoh Road, Saharanpur (U.P.)
139.	Bharatiya Samajwadi Vikas Party	F-717, Mangolpuri, Delhi-110083.
140.	Bharatiya Samata Party	A-71, Nirman Vihar, New Delhi.
141.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh)
142.	Bharatiya Seva Dal	3-1-236/239/1, First Floor, Somasunderam Street, Secunderabad-500003 (Andhra Pradesh).
143.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.)
144.	Bharatiya Surajya Manch	831, Sector-10, Panchkula-134113, Haryana.
145.	Bharatiya Yuva Shakti	B-32-B, New Gupta Colony, Delhi-110009.
146.	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Bombay-400014 (Maharashtra).
147.	Bharateey Samajwadi Morcha	3/1108, Dehradun Chowk Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh)
148.	Bharti Krishak Seva Samaj	Village-Kharkhari Ashram, Post-Kharkhoda, District-Meerut (Uttar Pradesh).
149.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).

150.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
151.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal)
152.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. - Sonta, Via - Alipur, Kheri, Distt. Mujjafar Nagar, Uttar Pradesh
153.	Bhartiya Jan Kalyan Party	199/2, Arjun Nagar, Kaithal-136 027, (Haryana)
154.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
155.	Bhartiya Kisan Mazdoor Party	Village And Post Meerpur, Tehsil-Khair, Distt. Aligarh (Uttar Pradesh).
156.	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
157.	Bhartiya Nojawan Dal	Sector-6, Pocket B-2, H.No.23, Rohini, New Delhi-110085.
158.	Bhartiya Rakshak Party	H.No. 397, Housing Board Colony, Rohtak-124 001 (Haryana)
159.	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi
160.	Bhōmi Jotak Samooh	560/12, Krishna Nagar, Kanpur Road, Lucknow-226005 (Uttar Pradesh)
161.	Bhrashtachar Virodhi Dal	7/216, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
162.	Bihar People's Party	303. C-Block, Daroga Prasad Roy Path, Patna-800001 (Bihar).
163.	Bihar Vikas Party	Room No.6, 1-Special Family Type, R-Block, Patna-800001 (Bihar).
164.	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10 (Orissa)

165.	Bolshevik Party Of India	C/o Bhai Bansod Juni Oli, Ram Mandir, Kamptee, District-Nagpur (Maharashtra).
166.	Brij Pradesh Nirman Sangh	Sri Aurobindo Bhawan, 28/352, Gudri Mansoor Khan, Agra-3 (U.P.)
167.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).
168.	Bundelkhand Vikas Dal	Village & P.O.-Culpahad, Janpad-Hamirpur (U.P.)
169.	Champan Vikas Party	Block-A, Flat No.102, Daroga Roy Path, Patna (Bihar).
170.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
171.	Chhattisgarh Kisan Mazdoor Party	House of P.R. Negi, Behind Jhule Lal Dham, Gali Dr. Bhanu Pratap Singh, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh.
172.	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg -491228 (Chhattisgarh)
173.	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh)
174.	Christhava Makkal Katchi	173, Ponnagar, Tiruchirapalli-620001, (Tamil Nadu)
175.	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu)
176.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu)
177.	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037 (Kerala)
178.	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala)
179.	Congress Jananayaka Peravai	24, Ormes Road, Kilpank, Chennai-600010.

180.	Congress of People	5, Patropolis Colaba, Bombay-400005 (Maharashtra)
181.	Congunadu Makkal Katchi	TTS Complex-58, Mettur Road , Erode District-638011, Tamil Nadu .
182.	Dalit Mazdoor Kisan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
183.	Dalit Muslim Vikas Party	2/306, Dakshin Puri , New Delhi-110062.
184.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar)
185.	Delhi Vikas Party	B-600 Jahangir Puri, Delhi – 110033
186.	Democratic Bahujan Samaj Morcha	Village-Sotran, P.O. Chak Kalai , Tehsil & District-Nawanshahar, Punjab .
187.	Democratic Bharatiya Samaj Party	985-B, Arjan Nagar, Ladowali Road , Jalandhar City-144001, Punjab .
188.	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali , Near Gopal Mandir , Majitha Road , Amritsar (Punjab) .
189.	Democratic Forward Bloc	66, Tamil Sangam Road, Madurai-625001 (Tamil Nadu)
190.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B.Nagar (Kareli) , Allahabad (Uttar Pradesh) .
191.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk) , Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir) .
192.	Democratic Jharkhand Mukti Morcha	Pump Road, Tonka Toli. P.O. Chakradharpur-833 102 , Shinghbhum West (Jharkhand)
193.	Democratic Movement	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir)
194.	Democratic Party Of India	162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar , Nagpur-17 (Maharashtra)

195.	Democratic Revolutionary Peoples Party	Akham Leikai, Kwakaithal Airport Road, Imphal-795001, Manipur.
196.	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1 st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
197.	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
198.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092
199.	Desia Pathukappu Kazhagam	"ARIVAGAM" 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
200.	Dhiravida Thelugar Munnetra Kalagam	4/802, Kurunji Street, Tahsildhar Nagar, Madurai-625020.
201.	Divya Shakti Party	7/106, Ground Floor, Geeta Colony, Delhi-110031.
202.	Dravida Makkal Congress	No.11, Jawaharlal Nehru Road, 1 st Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
203.	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
204.	Dravida Vizhipunarchi Kazhagam	17-A, Gangappa Street, (Opp. To A.V.M. Studio), Vadapalani, Chennai-600026, Tamil Nadu.
205.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjahapur (Uttar Pradesh)
206.	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
207.	Ephraim Union	Tiangdingliana Building, Bawngkawn South, Aizawl-796012, (Mizoram)
208.	Farmers Developments Party	149, Mambalam High Road, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
209.	Federation Of Sabhas	101, Savitri Complex, Opp. Chaudhry Cinema, Ghaziabad-201001. (U.P.)

210.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal)
211.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town And Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
212.	Gareebjan Samaj Party	450, Jaidevi Nagar, Garh Road, Meerut (Uttar Pradesh).
213.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
214.	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya)
215.	Goa People's Congress	Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403 001.
216.	Goa Pokx	Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403001.
217.	Goa Rajiv Congress Party	Ist Floor Dias Building, Rua Ormuz Road, Opp. Ferry Wharf, Panaji, Goa-403 001.
218.	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira, Bardez-Goa (Pin-403514).
219.	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
220.	Golden India Party	'Nandan Van', B-94, Gyan Marg, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan).
221.	Gommant Lok Pokx	31 st January Road, P.O.Box-242, Panjim (Goa).
222.	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh)
223.	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).

224.	Grama Munnetra Kazhagam	'Z' Mangammal Salai, Renga Nagar, Tiruchirapalli-620021 (Tamil Nadu)
225.	Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad, Lucknow, Uttar Pradesh.
226.	Gujarat Adijati Vikash Paksh	Block No.6/4, MLA Nivas, Sector-21, Gandhi Nagar (Gujarat).
227.	Gujarat State Janta Congress	Indubhai Patel Bhawan, Vasant Chowk, Bhadrā, Ahmedabad-380001 (Gujarat).
228.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat)
229.	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
230.	Haryana Lok Dal	705, Sonipat Road, Rohtak (Haryana)
231.	Haryana Vikas Party	Kothi No. 136/22, Sonipat Road, Rohtak (Haryana).
232.	Himachal Kranti Party	Village Khart, P.O.Nandrool, Tehsil & Distt. Kangra-176001(H.P.)
233.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.)
234.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi
235.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017
236.	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh)
237.	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
238.	Hindu Samaj Party	117/K-36. Sarvodaya Nagar, Kanpur (U.P.)
239.	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra)

240.	Hindustan Party	202, Devika Apts., Baba Jan, Poona-411001. (Maharashtra).
241.	Hindustan Samajwadi Prajatanter Sena (Bharat)	Vill. and Post Office: Bankasiya Shivratan Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.)
242.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
243.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
244.	Ikkiya Makkal Munnetra Kazhagam	Makkalagam No.11, Pearl Empire Apartments, Kuppam Beach Road, Tiruvanmiyur, Chennai (Tamil Nadu).
245.	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
246.	Indian Christian Front	Plot No.660, East Last Road, Anna Nagar, Madurai-625020, Tamil Nadu.
247.	Indian Christian Secular Party	Sagaya Matha Mligai, No. 105/167, Thiruvalluyar Nagar, Ayanavaram, Chennai-600 023. (Tamil Nadu)";
248.	Indian Ekta Party	A-180, Sector-40, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
249.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001.
250.	Indian Liberation Front	T-16, Green Park Extension, New Delhi-110016.
251.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
252.	Indian National Labour Party	Rajani Mukherjee Smriti, Bhabar, Coal Dock Road, (Former Coal Controller's Office) Calcutta-700043 (West Bengal).
253.	Indian National League	No. 7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.

254.	Indian Peace Party	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
255.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
256.	Indian Republican Front	36/19/3, P.D. Kidganj, Allahabad, (Uttar Pradesh).
257.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi - 110025
258.	Indian Union Muslim League	18, Feroz shah Road, New Delhi - 110001
259.	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
260.	Jagath Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
261.	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
262.	Jai Hind Party	Ward No.6, Supaul, P.O. & Distt. Supaul, Bihar-852131.
263.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
264.	Jai Prakash Janata Dal	16, Ashoka Road, New Delhi-110001.
265.	Jai Telangana Party	H.No.34/9, SBH Colony, Shrinagar, Hyderabad-500073 (Andhra Pradesh)
266.	Jammu & Kashmir Awami National Conference	Central Office, Red Cross Road, Maisuma, Srinagar-190001 (J & K).
267.	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir)
268.	Jammu And Kashmir Awami League	Central Office, No.1, Durganag Road, Adjacent Burn Hall School, Senawar, Srinagar-190001 (Jammu & Kashmir).
269.	Jammu And Kashmir Peoples Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).

270.	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
271.	Jan Kranti Morcha	89-M, Kidwai Nagar, Kanpur (Uttar Pradesh)
272.	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
273.	Jan Sewa Party	J-7, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092.
274.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
275.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 52A, Shakespeare Sarani, 5 th Floor, Kolkatta-700017 (West Bengal).
276.	Jananishta	Mohan Villa, A-1/347, Janak Puri, New Delhi 110058
277.	Janata Congress Party of Bharat Varsha	A-15/2, Vasant Vihar, P.B. No.8801. New Delhi – 110057.
278.	Janata Party	A-77, Nizamuddin East, New Delhi.
279.	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha (Madhya Pradesh).
280.	Janhit Morcha	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
281.	Jansatta Party	6A, Prem Vihar, Jansath Road, Muzaffarnagar (Uttar Pradesh)
282.	Jansevak Samaj Party	159, Bodhashram, Tapa Road, Mohalla- Khera, Ferozabad-283203 (Uttar Pradesh).
283.	Jawan Kisan Morcha	Nirmal Palace, New Colony, Pakri, Aara, Bihar-802301.
284.	Jebamani Janata	No.33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).

- | | | |
|------|---|--|
| 285. | Jharkhand Disom Party | 12, Road No.21, Kadma Farm Area,
Jamshedpur-831005, Jharkhand. |
| 286. | Jharkhand Ki Krantikari Party | Village & Post Nawagarh District
Ranchi-835103, Jharkhand. |
| 287. | Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) | Shukla Colony, Post Hinoo, Ranchi Distt,
Ranchi-834002 (Jharkhand). |
| 288. | Jharkhand Party | Main Road, Ranchi (Jharkhand). |
| 289. | Jharkhand Party (Naren) | At-Raghunathpur, P.O.Jhargram, District-
Midnapur-721507 (West Bengal). |
| 290. | Jharkhand People's Party | P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur,
Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand). |
| 291. | Jharkhand Vananchal Congress | 5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand. |
| 292. | Jharkhand Vikas Dal | 10, A.P.N. Bose Compound, Ranchi-834001
(Jharkhand). |
| 293. | Kaivinayger Munnetra Kazhagam | Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road,
Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu) |
| 294. | Kamarajar Adithanar Kazhakam | 6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu,
Nagercoil-629001, Tamil Nadu. |
| 295. | Kamarajar Deseeya Congress | 7-Velayudha Raja Street, Raja
Annamalaipuram, Mandaveli,
Chennai-600028 (Tamil Nadu) |
| 296. | Kamjor Varg Sangh, Bihar | Central Office: Post Office Building, Lal
Bahadur Shastri Nagar, Post Office
(Upper Floor) Patna-800023 (Bihar). |
| 297. | Kanchee Aringer Anna Dravida Makkal
Kazhagam | No 10A, Natham Mettu St., Chengalpattu
(Tamil Nadu). |
| 298. | Kannada Paksha | No. 259/1, 1 st Floor, Rangswamy Temple
Street (Opp. to Jain Temple)
Bangalore-560053 (Karnataka) |
| 299. | Kannada Chalavali Vatal Paksha | 154, Rangswamy Temple Street,
Bangalore-560053 (Karnataka) |

300.	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16 th Main, 6 th Cross, Ist Phase, 2 nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka)
301.	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
302.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051(Karnataka).
303.	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala).
304.	Kerala Congress(B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala)
305.	Khasi Farmers Democratic Party	Malki Chinapatty, Shillong-793001, Meghalaya.
306.	Khun Hynnietrip National Awakaning Movement	C/o Office of the Khasi Students Union, Jaiaw Chapel Road, Shillong-793 002 (Meghalaya).
307.	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar Distt: Etah (Uttar Pradesh)
308.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh)
309.	Kisan Naujawan Party	Rajendra Nagar, Karmer Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh.
310.	Kisan Vikas Party	Abdul Pura, Distt. Meerut (Uttar Pradesh).
311.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh)
312.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
313.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambhalpur-768004 (Orissa)

314.	Kranti Dal	132, Babuganj, Lucknow (U.P.)
315.	Kranti Parishad	House No.2019, Mistrikhan Road, Naharg Road, Jaipur (Rajasthan)
316.	Krantikari Berozgar Party	H.No.86, Vinoba Ward, Ward No.6, Behind Jain Temple, Govt. Girls School Road, Sihora District, Jabalpur-483 225, (Madhya Pradesh)
317.	Krantikari Manuwadi Morcha	F-62, Sector-11, Noida-201301 (Uttar Pradesh)
318.	Krantikari Samajwadi Party Lohia	18/22, Taskand Marg, Mool Chand Yadav Chouraha, Civil Lines, Allahabad (U.P.)
319.	Krantikari Samyavadi Party	New Family Type Quarter No.1, Road No.2, R-Block, Patna. (Bihar)
320.	Kudi Makkal Katchi	No.7, Kamarajar Street, Pallikaranai, Chennai-601302 (Tamil Nadu).
321.	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
322.	Labour And Job Seeker's Party Of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu)
323.	Labour Party Of India(V.V. Prasad)	4, Ramachander Lane, Ram Kishore Road, Civil Lines, Delhi-110 054
324.	Labour Vikas Party	1407, New Preet Nagar, Tibba Road, Ludhiana (Punjab).
325.	Lairam People Party	Hqrs. Lawngtlai, P.O.-Lawngtlai-796891 (Mizoram)
326.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
327.	Life Peaceful Party	Sarvadharmha Bhawan, Hindu-Muslim Viswa Shanthi Ashrama and Komusowharda Vishwashanthi, Sarvadharmha Ashrma Trust, Rajanagara, Poona-Bangalore Road, Tumkur-572 106 (Karnataka)

328.	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
329.	Lok Dal	C-616-Budh Nagar, Inderpuri, New Delhi-110012
330.	Lok Hit Party	Basti Abdulapura, Ludhiana-3 (Punjab)
331.	Lok Jan Shakti Party	12-D, Ferozshah Road, New Delhi-110001.
332.	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
333.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
334.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
335.	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
336.	Loktantrik Jan Samta Party	C-7/166, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
337.	Loktantrik Morcha Himachal Pradesh	212, Jawahar Sadan, Shimla-171004, Himachal Pradesh.
338.	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
339.	Loktrantrik Janata Front	D-351/12, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
340.	M.G.R. Kazhagam	32, New Tank Street, Nungambakkan, Chennai-600034 (Tamil Nadu)
341.	M.G.R. Mannetra Kazhagam	Konnoor High Road (Canal Area) Otteri, Chennai-600012 (Tamil Nadu)
342.	Madhya Pradesh Kisan Mazdoor Adivasi Kranti Dal	Vidhayak Vishram Girh, Room No. 95, Part-III, Bhopal-462 003. (Madhya Pradesh)
343.	Madhya Pradesh Loktantrik Party	19-Durga Colony, Sanjivani Nagar, Gadda, Jabalpur-482003 (Madhya Pradesh)
344.	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu)

345.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.)
346.	Maharashtra Lokshakti Paksha	6-A, Ground Floor, Sarvodaya Trust Building, Gokhale Road (South), Dadar (West), Mumbai-400028, Maharashtra.
347.	Maharashtra Pradesh Krantikari Party	At. Post-Tal. Koregaon, Koregaon, Distt. Satara (Maharashtra).
348.	Maharashtra Rajiv Congress	Dr. Babasaheb Ambedkar Nagar, Near Bus Stop, No. 379, P.L. Lokhande Marg, Chembur, Mumbai-400089 (Maharashtra)
349.	Maharashtra Secular Front	Hill Viwe, 109, A/2, Vaishali Nagar, (S.V.P. Road, Dharkhadi), Dahisar (East), Mumbai-68, (Maharashtra).
350.	Maharashtra Vikas Congress	At & Post-Jalgaon, Distt. Jalgaon-425001 (Maharashtra)
351.	Mahashakti Inqualab Party	Tigri, Khushhalpur, Muradabad, Uttar Pradesh.
352.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
353.	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh)
354.	Makkal Nalaurimaik Kazhagam (People's Liberal Party)	629, Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu)
355.	Makkal Sakthi Eyakkam	17-A, South Avenue, Kamaraj Nagar, Thiruvannamiyur, Chennai-600041 (Tamil Nadu).
356.	Makkal Tamil Desam	14, Hanumantha Road, Balaji Nagar, Royapettah, Chennai-600014, Tamil Nadu.
357.	Makkal Vilipunarvu Eyakkam	Seeranampalayam, Palakkarai-638017, Thudupathi (via) Perundurai Taluk, Erode District, Tamil Nadu.

358.	Manav Kalyan Sangh Dal	Gadi Sthan-Mehtwara, Tahsil A .ha, District Sehore (Madhya Pradesh)
359.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
360.	Manav Sewa Party	C-6/28, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.
361.	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka)
362.	Manipur National Conference	Babupara Imphal, Manipur-795001.
363.	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
364.	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucknow-226004, Uttar Pradesh.
365.	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimtuipui District (Mizoram).
366.	Marumalarchi Thamizhakam	1/19, Onangudi (P.O.) Arimalam (Via) Pudukkottai District, Tamil Nadu.
367.	Marxist Communist Party of India (S.S. Srivastava)	Saidpur Patna-800004 (Bihar)
368.	Marxist Co-ordination	115 MLA Flat, Bir Chand Patel Path, Patna-800004 (Bihar)
369.	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh)
370.	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793 001, Meghalaya.
371.	Ministerial System Abolition Party	25, Burtolla Street, Calcutta.
372.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.

373.	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).
374.	Moovendar Munnetra Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madhurai-625 107 (Tamil Nadu)
375.	Mukt Bharat	H-22, Kailash Colony, New Delhi- 110048.
376.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh)
377.	Nag Vidarbha Andolan Samiti	Pardesi Telepura, Bajeeriya, Near Shukla Lodge, Nagpur-440018 (Maharashtra)
378.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
379.	Nagaland Democratic Party	H.No.65, Residency Colony (P.W.D.), Near State Stadium, Dimapur, Nagaland, Pin-797112.
380.	Nagaland Peoples Front	Burma Camp, Dimapur-797112, (Nagaland).
381.	Nagrik Ekta Dal	B-15, Deen Dyal Nagar, Phase-II, M.D.A. Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
382.	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
383.	National Congress Of Youth	Post Box No. 6204, 2A/37-38 Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
384.	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala)
385.	National Democratic Peoples Front	C-4D 42 B, Janakpuri, New Delhi.
386.	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).
387.	National Minorities Party	7A-Junction S.V. Road and Bandra Railway Station Road, Opp. Lucky Hotel, Bandra (W), Mumbai-400050 (Maharashtra)

388.	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078 (Tamil Nadu).
389.	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh)
390.	National People's Party	C/o Uripok Naoremthong, Imphal-795001 (Manipur).
391.	National Republican Party	T-42/6. Old Barracks, Chamber Camp, Bombay -400074 (Maharashtra).
392.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
393.	Nationalist Democratic Movement	Room No. 6 & 7, Naga Shopping Arcade, Dimapur (Nagaland)
394.	Nationalist Party of India	5A, Beli Road, Allahabad-211002. (Uttar Pradesh).
395.	Native People's Party	H.O. Gote Nivas, Tisgaon Road , Kalyan (East)-421306. (Maharashtra).
396.	Nav Maharashtra Vikas Party	C-6, Bhaskar Darshan, Arunoday Nagar, Mulund East, Mumbai-400081, (Maharashtra)
397.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
398.	Navbharat Nirman Party	5/1, Ashoka Chambers, Rajinder Park, B-5, Pusa Road, New Delhi-110060.
399.	Nesavaalar Munnetra Kattchi	No.6, Ganga Nagar, Kodambakkam, Chennai-600024 (Tamil Nadu).
400.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
401.	New India National Movement	2, Bigcity House, Behind Maszid, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001.
402.	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani,-505209, Distt. Karimnagar (Andhra Pradesh).

403.	Nidaya Malik (N) Party	242, Civil Lines, Gaunda, Distt. Gaunda-271001 (Uttar Pradesh).
404.	Nissabada Bhooripaksham	113, Pattukal Shopping Complex, IInd Floor, East Fort, Trivendrum Fort, P.O. Trivendrum, Kerala.
405.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand, Mahendregarh, Haryana.
406.	NTR Telugu Desam Party (Lakshmi Parvathi)	Road No. 13, Banjara Hills, Hyderabad-500034 (Andhra Pradesh)
407.	Nyaynishth Prajatantra	Central Head Quarter and P.O. - Dewar (Gopeshwar)-246401, District Chamoli, Uttranchal.
408.	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
409.	Orissa Congress	Q.No.D.S. 1/19, MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar -750001 (Orissa).
410.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
411.	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
412.	Panchal Morcha	137 B-1, Gautam Nagar, New Delhi-110049.
413.	Panchayat Raj Party	106, Pocket A-3, Sector-3, Rohini, New Delhi - 110034
414.	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
415.	Parivartan Samaj Party	Loha Mandi, Near Jain Mandir, Gwalior, Madhya Pradesh.
416.	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
417.	Parvatiya Punrutthaan Parishad	64, 1 st Floor, Adhchini, Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016.

418.	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Calcutta-700016 (West Bengal)
419.	Paschimbanga Ganatantrik Mancha	Flat No.56, Block-H, C.I.T. Building, Christopher Road, Kolkata-700014 (West Bengal).
420.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
421.	Pavitra Hindustan Kaazhagam	11, Harish Chandra Mathur Lane, New Delhi-110001.
422.	Peasants And Workers Party Of India	Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Bombay (Maharashtra).
423.	People's Democratic Front	H.Q. Guwahati, H.O. Udalgiri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).
424.	People's Justice Party	'KAAR ARUL', A-87, Kandasamy Salai 8 th Street, Periyar Nagar, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
425.	People's Party Of Arunachal	P.O. Nahar Lagun – 791110 (Arunachal Pradesh)
426.	Peoples Democratic League Of India	Building No. 25, Flat No.8, Chitnavisnagar Layout, Byramji Town, Near Mental Hospital, Nagpur-13 (Maharashtra).
427.	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
428.	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
429.	Phule Bharti Lok Party	1793, Street No.1, New Kailash Nagar, P.O. Basti Jodhewal, Ludhiana, Punjab.
430.	Pichhra Samaj Party	Mohalla Bazar Sarafa, Nagina, District- Bijnor, Uttar Pradesh.
431.	Plains Tribals Council Of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).

432.	Political Party Of National Management Service	C-546, Defence Colony, New Delhi-110024.
433.	Pondicherry Mannila Makkal Munnani	17 Kumran Street, Kamarajar Nagar Pondicherry-605001
434.	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.
435.	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur- 221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
436.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).
437.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar,Hyderbad-500029 (Andhra Pradesh).
438.	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
439.	Progressive Hul Jharkhand Party (Shibu Group)	Gidhanipahari, Dumka - 814101 (Jharkhand)
440.	Proutist Sarva Samaj	10/105A, Sector 3, Rajendra Nagar, Sahibabad, Distt. Ghaziabad (U.P.)
441.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh)
442.	Punjab Janata Morcha	Panj Pir, Jalandhar City -144001 (Punjab).
443.	Punjab Pradesh Vikas Party	H.O. HIG-970, PHB Colony , Urban Estate, Focal Point, Ludhiana (Punjab)
444.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
445.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101, Distt. Sangrur (Punjab).
446.	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
447.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Malipapur Extn., New Delhi-110037.

448.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
449.	Puthiya Tamilagam	132, New M.L.A.s Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu)
450.	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh)
451.	Quami Party	930, Street No.30/7, Jafrabad, Delhi – 110053
452.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
453.	Rajasthan Veer Sena	1-8-17(SFS), Dr. Sheela Chowdhary Road, Talwandi, Kota-324005 (Rajasthan).
454.	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).
455.	Rajiv Makkal Congress	No.16 (Old No.18), Viswanathapuram, III Street, Kodambakkam, Chennai-600024, Tamil Nadu.
456.	Ramrajya Marg	No.17, Venus Colony, Second Street Alwarpet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
457.	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District - Yamuna Nagar, Haryana.
458.	Rashtra Suraksha Parishad	Kothi No.A-2/79, Paschim Vihar, New Delhi-110063.
459.	Rashtravadi Communist party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
460.	Rastravadi Janata Party	43-A, Sukhbir nagar, Karala, New Delhi-110081.
461.	Rashtriya Aikta Manch	A-1, Vikas Enclave, Hastal, Uttam Nagar, New Delhi –110059

462.	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
463.	Rashtriya Bahujan Ekta Party	Alok Nagar, Air Force, Bareilly-243122 (Uttar Pradesh).
464.	Rashtriya Bhrasthachar Virodhi Morcha	Central Office Shivaji Nagar, Abu Parbat, 307501, Distt. Sirohi (Rajasthan).
465.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
466.	Rashtriya Deshbhakt Party	B-61, Shanker Garden, Vikas Puri, New Delhi-110018.
467.	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh)
468.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghoribachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
469.	Rashtriya Gurujan Party	Gurujan Vidyabhuvam, Doodh Sagar Marg, Rajkot - 3, Gujarat.
470.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005
471.	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095
472.	Rashtriya Jan Sangam	Sharma Kunj, Shivpuri, Bulandshahr (Uttar Pradesh).
473.	Rashtriya Janandholan Paksha	"Powrabhavan", No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
474.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
475.	Rashtriya Jansevak Parishad	Devkanya Sadan, Near Water Tank, Tripolia Road, Banswara-327001 (Rajasthan)
476.	Rashtriya Janta Congress	A-4, Swaran Singh Road, Adarsh Nagar, New Delhi-110033.

477.	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana)
478.	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
479.	Rashtriya Kranti Party	2, Mall Avenue, Lucknow, (Uttar Pradesh)
480.	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi -110043
481.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
482.	Rashtriya Mahasangh	N.R. Complex, Opp. Nagar Palika Office, Ajmer -305001 (Rajasthan).
483.	Rashtriya Manav Adhikar Congress Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
484.	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi -110009
485.	Rashtriya Nayay Party	College Road Dehari, Tehsil Nurpur, Distt. Kangara, Pin Code-176 022 (Himachal Pradesh).
486.	Rashtriya Parivartan Dal	Jan BSPA House, 4/93, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
487.	Rashtriya Party	Gaya Prasad Dharmshala Complex, Charbagh Sabzi Mandi, Lucknow (Uttar Pradesh).
488.	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
489.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
490.	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
491.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.

492.	Rashtriya Samaj Sevak Dal	Bheera Khiri, Janpad-Khiri-262901 (U.P.)
493.	Rashtriya Samaj Sudhar Party	Village Thantri, Post Ghodi, Distt. Faridabad (Haryana).
494.	Rashtriya Samajwadi Congress	H.No.J-12/57-A, Dhoopchandi,(Labour Colony) Varanasi (U.P.)
495.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-11—52.
496.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh)
497.	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
498.	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh)
499.	Rashtriya Surajya Parishad	Mrudul Tower, Ground Floor, Kailash Society, H.K.House Lane, Ashram Road Ahmedabad-380009 (Gujarat)
500.	Rashtriya Swajan Party	Ghagha Ghat Road, Near Malaria Office, Mahendru, Patna-800006 (Bihar).
501.	Rashtriya Unnatisheel Dal	F.167, Chand Bagh, P.O. Kulpur, Delhi - 110094
502.	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
503.	Rashtriya Yuva Loktantrik Party	Chamber No.461, New Chamber Complex, Patiala House Courts, New Delhi-110001.
504.	Republican Janata Party	D-29, Gandhi Vihar, D.D.A. Colony, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
505.	Republican Movement	Post Box No.117, Tadoba Road, Tukum, Chandrapur - 442401, Maharashtra.
506.	Republican Party of India	ENSA Hutment, I-Block, Mahapalika Marg, Azad Maidan, Mumbai-400001 (Maharashtra)

507.	Republican Party Of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra)
508.	Republican Party Of India (Kamble)	11/174, Adarsh Nagar, Prabhadevi, Bombay-400025 (Maharashtra)
509.	Republican Party Of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu)
510.	Republican Party Of India(A)	17/69, Thansingh Nagar, Anand Parbat, New Rohtak Road, New Delhi-110005
511.	Republican Party Of India(Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh)
512.	Republican Presidium Party Of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra)
513.	Revolutionary Communist Party Of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-700025 (West Bengal)
514.	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik)	T.C.-25/507, UTUC Buildings, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
515.	Sabjan Party	C-1/50, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
516.	Sabka Dal Bharatiya Samajwadi Congress	N-14/169, Sarainandan (Khojva), Varanasi-221010 (Uttar Pradesh).
517.	Sachet Bharat Party	13/A/5, Shivaji Nagar, No.1, Govandi, Mumbai-43 (Maharashtra)
518.	Sadbhavana Party	Room No.14, 1st, Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
519.	Sahi Party	15, Nasiruddin Lane, Pahari Tola, Ranchi-834001 (Jharkhand)
520.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
521.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana)

522. Samajik Jantantrik Party Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
523. Samajik Nyaya Party M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
524. Samajwadi Jan Parishad Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
525. Samajwadi Janata Party (Rashtriya) Narendra Niketan, Behind Police Headquarters, Indraprastha Estate, New Delhi-110002.
526. Samajwadi Janata Party(Maharashtra) Barrack No.4, Behind Yashodhan Dinsha Wacha Road, Church Gate, Mumbai-400020 (Maharashtra).
527. Samata Sangharsh Party 618-F 2/2/1, Shankar Gali, Vishwas Nagar, Delhi-110032.
528. Samudaya Munnetra Kazhagam No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
529. Sanatan Samaj Party Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh)
530. Sanyukt Dastkar Party P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
531. Sarb Hind Shiromani Akali Dal 103, New Officers Colony, Patiala, Punjab.
532. Sardar Patel Congress Party B-31, Ground Floor, Lajpat Nagar-1, New Delhi - 110024.
533. Sarva Seva Party B-51, Pratap Vihar, Part-3, Nangloi, Delhi-110041.
534. Sarvadharam Party(Madhya Pradesh) C-44, Padmanabh Nagar, Bhopal- 462023 (Madhya Pradesh)
535. Sarvahara Samaj Party 68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).

536.	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
537.	Sarvodaya Party	P3, University Campus, University Of Rajasthan, Jaipur-302004 (Rajasthan)
538.	Satya Mave Party	548, Ramdass Pate, Nagpur-10 (Maharashtra).
539.	Satyayug Party	Flat No.203, Bldg. No.6-4-323/A, Vivek Vanshi Residency, Mekala Mandi Road, Bholakpur, Secunderabad-500080, (Andhra Pradesh)
540.	Savarn Samaj Party	East Of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001 (M.P.)
541.	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
542.	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (Jammu & Kashmir)
543.	Sehajdhari Sikh Federation	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
544.	Shakti Dal	A-4, Maharani Bagh, New Delhi-110065.
545.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
546.	Shikshit Berozgar Sena	Kammu Katra Sadarganj, Shabnam Tailor Maryahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
547.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
548.	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar)
549.	Shoshit Samaj Party	327, Krishi Apartment, 'D'-Block, Vikas Puri, New Delhi -110018
550.	Sikkim Himali Rajya Parishad	Metro Point, 5 th Mile Tadong, Gangtok (East Sikkim).

551.	Sikkim Janashakti Party	Ranipool Marchak, Chakung House, P.O. Ranipool, Gangtok (Sikkim)
552.	Sikkim National Liberation Front	31-A, National Highway, P.O. Gangtok (Sikkim)
553.	Sinh Jan Seva Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat)
554.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
555.	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt., Pin-689072 (Kerala).
556.	Social Justice Party	No. 73, Ellaiaman Colony, Teynampet, Chennai-600086 (Tamil Nadu).
557.	Socialist Party(Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
558.	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum - 695001 (Kerala).
559.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
560.	Swatantra Bharat Paksha	'Rahi', Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
561.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
562.	Tamil Maanila Kamraj Congress	C/o F.B. Benjamin George, Advocate, No.17, Dooming Street, Santhome, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
563.	Tamil Nadu Deseeya Grameeya Thozhilalar Congress	5/58, Maniam Building, Theethipalayam Post, Coimbatore-641010 (Tamil Nadu).
564.	Tamil Nadu Makkal Congress	310- V-Block Boopathy Nagar, Chennai-600024 (Tamil Nadu)
565.	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).

189 G1/03-12

566.	Tamil Nadu People's Party	16/2 K.P. Street Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu)
567.	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
568.	Tamilar Desiya Iyyakkam	9, Sundareshwarar Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu)
569.	Tamilar Kazhagam	180, Longly Road, Shevapet, Salem-636002 (Tamil Nadu)
570.	Tamizhaga Munnetra Munnani	No. 152 A, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017 (Tamil Nadu)
571.	Tamizhaga Rajiv Congress	6-II, Main Road, Raja Annamalaipuram, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
572.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu)
573.	Tarai Kranti Dal	21/2, Indira Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
574.	Telangana Praja Party	'Anantha Nilayam', Door No. 14-9-519, Chudi Bazar Dargah, Hyderabad-500 012, Andhra Pradesh.
575.	Telangana Rashtra Samithi	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
576.	Thaayaga Makkal Katchi	7, Y.V.D. Complex, Chathiram Bus Stand, Tiruchirappalli-620002, Tamil Nadu.
577.	Thamilar Bhoomi	5, Dr. Sir C.V. Raman, 1 st Street, Kumaran Nagar, Tricherapalli-620017, (Tamil Nadu).
578.	Tharasu Makkal Mandram	14-Sait Colony, First Street Egmore- 600008 (Tamil Nadu)
579.	The Consumer Party of India	Deshmukhwadi Complex, P.K. Road and Zaver Road Junction, Mulund (West), Mumbai-400080 (Maharashtra).
580.	The Great India Revolutioners	4/55, Roop Nagar, Delhi-110007.

581.	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Bombay-400054 (Maharashtra)
582.	The Religion Of Man Revolving Political Party Of India	Kabitirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
583.	Thondar Congress	40-Venkatanarayana Road, Thiyagarayanagar, Chennai-600017. Tamil Nadu.
584.	Tribal People Party	170, Lingi Chatty Street, Chennai-600 001 (Tamil Nadu).
585.	Trilok Shakti Congress Bharat	49-D, Triveni Nagar, Naini, Udyog Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
586.	Trimanool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4 th Floor, Ganeshguri Chariali, Guwahati-781006 (Assam).
587.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam)
588.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
589.	United Communist Party Of India	No.2 Fiftieth Street, Ashok Nagar, Chennai-600083 (Tamil Nadu).
590.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
591.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka)
592.	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007(Assam)
593.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
594.	United Reservation Movement Council Of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
595.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam)
596.	Uttar Pradesh Jan Manas Party	A-1445/6, Indira Nagar, Lucknow-226016 (Uttar Pradesh).
597.	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2 nd Street, Lucknow-226004 (U.P.)

598. **Uttarakhand Sanskriti Parishad**
D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
599. **Uttarkhand Janwadi Party**
53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
600. **Uzhaippalar Katchi**
70-D, Palanisamy Street, Vaniyambadi Road,
Tirupattur-635601, Vellore District,
Tamil Nadu.
601. **Uzhaippalar Podhu Nalakatchi**
Tirupattur, Vellore District,
Tamil Nadu-635601.
602. **Vidarbha Vikas Party**
Block A, Second Floor, Poonam Chambers,
Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
603. **Vidharabha Rajya Mukti Morcha**
A Type, Sukhkarta Apartment, Balraj Marg,
Dhantali, Nagpur-440012 (Maharashtra).
604. **Vidhayak Dal**
HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh.
605. **Vijeta Party**
501, Abhishek Plaza, Exhibition Road,
Patna-800001 (Bihar).
606. **Vikas Party**
Satyagarh Marg, Darul Safa Compound,
Lucknow (Uttar Pradesh).
607. **Vikaswadi Communism Party**
Makhdumpur Road, Mawana Kalan
250401, Distt. Meerut (U.P.)
608. **Viswa Maya Political Party**
6D-6-18 (House No.),
Near Markandeswara Swamy Temple,
Southern Street, Eluru-534001,
West Godavari District, Andhra Pradesh.
609. **Vivasayi Anbhu Katchi**
No.14, Raghava Nattan Street,
Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
610. **West Bengal Socialist Party**
42, Indian Mirror Street, Calcutta,
West Bengal.
611. **Youth Brigade**
Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali,
District Hooghly, West Bengal.
612. **Yuva Gantantra Party**
Sardar Patel Nagar, Jamnipali-Korba, District
Bilaspur, Chhattisgarh.
613. **Yuva Jan Jagriti Party**
Bahalolpur,
Bulandshaher-202391,
Uttar Pradesh.

TABLE-IV
(LIST OF FREE SYMBOLS)

1. Aeroplane
2. Almirah
3. Axe
4. Balloon
5. Banana
6. Bangles
7. Basket
8. Bat
9. Batsman
10. Battery Torch
11. Bead Necklace
12. Black Board
13. Book
14. Bread
15. Brick
16. Bridge
17. Brief Case
18. Brinjal
19. Brush
20. Bungalow
21. Cake
22. Camera
23. Candles
24. Car
25. Carrom Board
26. Carrot
27. Ceiling Fan
28. Coat
29. Coconut
30. Comb
31. Cot
32. Cup & Saucer
33. Dao
34. Diesel Pump
35. Dolli
36. Electric Pole
37. Envelope
38. Fork
39. Frock
40. Frying Pan
41. Gas Cylinder
42. Gas Stove
43. Glass Tumbler

44. Hanger
45. Harmonium
46. Hat
47. Ice Cream
48. Ink Pot & Pen
49. Iron
50. Jug
51. Kettle
52. Kite
53. Lady Purse
54. Letter Box
55. Lock and Key
56. Maize
57. Nagara (In all States and Union Territories except in the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura)
58. Neck Tie
59. Pressure Cooker
60. Railway Engine
61. Ring
62. Road Roller
63. Saw
64. Scissors
65. Sewing Machine
66. Shuttle
67. Slate
68. Spoon
69. Stool
70. Table
71. Table Lamp
72. Television
73. Tent
74. Toffee
75. Violin
76. Walking Stick
77. Whistle
78. Wool

[No. 56/2003/Jud.-III]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.